

एक—

दुधवार का तीसरा पहर, १५ दिसम्बर।

एक छोटे स्टेशन से आगे ट्रेन अभी सरकी ही थी कि एक कुली कूदकर बाहर आ गया। थोड़ी देर प्लेटफार्म पर खड़े-खड़े ही वह उन पैसों को आश्र्य और प्रसन्न मुद्रा से देखता रहा जो एक पागल से दृढ़-स्वभाव शात्री ने जल्दी से उसके हाथों में रख दिये थे। अगर सब के सब यात्री ऐसे ही लापरवाह हो जायें तो यह कुलियाँ के हित की बात होने से वे चिन्तित न होंगे।

इधर, पीठर चुपचाप किसी तरह एक कोने की उस सीट पर ढब्बे में बैठ गया जिसके ऊपर की सीट पर कुली ने जल्दी में उसका चमड़े का सन्दूक आदि रख दिया था। इस ट्रेन से वह न सवार होता तब भी काम चल सकता था। लगभग बीस मिनट बाद ही जो ट्रेन वहाँ से छूटती थी वह भी उसे गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देती, किन्तु वह होटल से एक निश्चय करके चला था और यह बात मानी हुई थी कि कुछ निश्चय कर चुकने पर वह उसे पूरा जरूर करेगा। थोड़ी देर तक वह पीछे छूटते हुए स्टेशन को भर नज़र देखता रहा और तब, हाथ की किताब खोलने के पहले, उसने एक नजर ढब्बे के अन्य यात्रियों पर डाली।

और कोई समय होता तो वह उधर से नजर हटाकर, सब कुछ भूलकर, किताब में ही मन लगाता। किन्तु इस समय ऐसा नहीं हुआ। इस युवती में कुछ ऐसा था जो बैजोड़ था, होटल में उसकी जो आवाज पीटर के कानों में पड़ी थी, वह अभी तक गूँज रही थी। लगभग वार्डस वर्प की उसकी आयु थी और वह बहुत सरल जान पढ़ती थी। इसके अलावा, उसमें असाधारण आकर्षण-शक्ति थी और वह चतुर भी जान पढ़ती थी।

वह किस वस्तु से ढर रही है? उस कोने में बैठे रक्षस से? शायद यही बात हो। पर वह इसका पति तो हो नहीं सकता। देखने से पिता और पुत्री भी नहीं जान पढ़ते। वह आदमी भी बहुत ध्वराया हुआ-सा जान पढ़ता था।

पीटर किताब की आँख से युवती को देखता रहा। योङ्गी देर तक तो युवती की आँखें बाहर के दृश्यों की ओर ही लगी रहीं, पर पीटर को यह निश्चय हो गया कि युवती का ध्यान कहीं और है। जिस चीज़ ने उसे इतन अधिक भयभीत कर रखा है वह साधारण न होगी। पीटर की, तब भी, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक पेन्सिल से अपनी किताब के खाली पेज पर बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा—‘क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ?’ और किताब को इस तरह हाथ में लिया कि आँखें घुमाने पर युवती उसे आसानी से पढ़ ले। हुआ भी यही। योङ्गी देर बाद युवती धूमी और उसकी दृष्टि अनायास ही इस लिखावट पर पड़ गई।

युवती ने आँख उठाकर पीटर की ओर देखा। उसे लगा कि यह युवक उसके काम आ सकता है और पीटर की दृष्टि में उसने शुभ चिन्ता के गात गाते। निज़ चंच चंचते चंच चिंगा। नी—ब—नी—ब—

‘कौन सी ?’

पीटर ने कहा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ?

‘मैं खुद कुछ नहीं जानती । लन्दन में मेरा कोई परिचित नहीं ।’

‘कृपया साफ साफ बतलाइए, क्या बात है ?’—पीटर ने कहा ।

थोड़ी देर तक टेलीफोन पर कोई आवाज नहीं आई, फिर उधर से किसी ने कहा—द्रैगन पर मेरे साथ जो आदमी था, उसे तो आपने देखा था न ?

‘हाँ, हाँ । तब ?’

‘उनकी मृत्यु हो गई । यहाँ ब्रैम्कोर्ट होटल में किसी ने रात को मार डाला ।’

पीटर की मुद्रा कठोर हो गई । उसने कहा—मैं अभी आ रहा हूँ । हाँ, कृपा करके अपना नाम तो बता दीजिए ।

आवाज आई—धन्यवाद । मेरा नाम ऑरियल मैन्सवेल है । कृपया जल्दी आदए ।

वेटर ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया—नहीं महाशय, शयन-कक्ष की दासी ऐलन मार्श ने पहले देखा था, पर उसे मूर्छां का दोगा आता है। किस्मत से मैं उस बक्क उसके पास ही था।

‘तुम्हारा नाम क्या है ?’

‘आर्थर व्रिग्स !’

‘साफ-साफ बताओ, तुम इस विपय में क्या जानते हो ?’

वेटर ने गला साफ करने की कोशिश करते हुए कहा—ऐलन इस कमरे की ओर दौड़ी चली आ रही थी, क्योंकि इस कमरे में कोई बड़े जोर-जोर से घटी बजा रहा था, पर पास आते ही उसने इस लाश को और छाती में धुसेडे हुए लुरे को देखा तो वह चिल्हाकर भागी। तब से वहुत कोशिशें कीं पर उसके मुँह से मैं कोई बात नहीं निकाल सका।

‘उस समय तुम उससे कितनी दूर थे ?’—सिल्वर ने पूछा।

‘करीब पाँच गज पर !’

‘और कोई उस बक्क वरामदे मैं था ? तुमने तब क्या किया ?’

‘उस समय वरामदे मैं और कोई नहीं था। मैंने लाश के पास जाकर उसे देखा पर कुछ लुआ नहीं।’—आर्थर व्रिग्स ने उत्तर दिया।

‘लाश उस समय कैसे पड़ी थी ? क्या शयन-कक्ष का दरवाजा बन्द था ?’

‘लाश जैसी इस समय पड़ी है वैसी ही पड़ी थी और सोनेवाले कमरे का दरवाजा भी बन्द था।’

‘सब कैसे हुआ, तब वह कुछ नहीं कह सकी। वह इतना ही कहा कि ‘पुलिस को बुलाइए’।’

सिल्वर ने सिर हिलाया और लाश को कपड़े से ढक दिया। तब एक चार पुरे बरामदे के घूमफर देराया, सीढ़ियों और लिफ्ट पर गौर किया, तथा नीचे उतरकर मैनेजर के कमरे में पहुँचा जहाँ वह लड़की बैठी हुई थी। सिल्वर ने एक उड़ती निगाह उस लड़की पर डाली और उतनी ही देर में यह भाँप लिया कि यह लड़की किस स्वभाव की है। कहा—मुझे खेद है, इस घटना से आपको बहुत चोट पहुँची है।

‘क्या अभी मेरी यहाँ कोई जरूरत है?’—लड़की ने पूछा।

‘हाँ, मुझे कुछ पूछना है। मैं समझता हूँ, आप आज ही शाम को इस होटल में आई हैं?’—सिल्वर ने कहा।

‘हाँ।’

‘आपका नाम तो शायद ऑरियल मैस्सेल है। आप कहो हैं?’

‘विंगफोर्ड, सरे के पास। मकान का नाम है पाइन लैंड्रस।’

‘जिस आदमी की हत्या हुई है उसे आप जानती हैं? उसका पूरा नाम क्या है?’—सिल्वर ने उसके दृढ़ चेहरे को पढ़ते हुए पूछा।

‘हाँ, मैं उसे जानती थी। उसका पूरा नाम है लौरिमर क्रैन्सटन।’

‘और उसका पता?’

‘ग्रेस्टोन्स, कूम्ह अव्वास, डॉरसेटशायर।’

‘आपके कमरे में कोई कीमती चीज तो नहीं थी।’

‘नहीं।’

‘सटखटाहट सुनने के बाद वया आपने दरवाजा खोल दिया।’

‘नहीं। मेरी निगाह कमरे की घंटी पर पड़ी और मैं उसे काफी देर तक बजाती रही। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बाहर कोई कराह रहा है और दरवाजे से सटकर कोई गिर पड़ा है। मैं उस समय भी एक तरह से दरवाजे से ही सटी भीतर खड़ी थी। मैं समझती हूँ, गिरनेवाले व्यक्ति मिस्टर क्रैन्सटन ही थे।’—लड़की ने उत्तर दिया। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा—‘नीचे से जब मैं ऊपर चली आई उसके थोड़ी ही देर बाद मिस्टर क्रैन्सटन शायद ऊपर आये होंगे। उनका कमरा मेरे कमरे के बगल में ही है। मैं नहीं जानती कि किसने मेरा दरवाजा खटखटाया था, पर मुझे विश्वास है कि वह व्यक्ति मेरी हत्या करना चाहता था। वही सन्देह मिस्टर क्रैन्सटन को भी हुआ होगा। वे उस आदमी से उलझ पड़े होंगे और तभी उसने उनके छुरा भोंक दिया होगा।’

सिल्वर आश्चर्य से आगे झुक गया। उसने कहा—तो क्या कोई आपकी हत्या करना चाहता था।

‘निःसन्देह। मिस्टर क्रैन्सटन मेरे पिता के बकील ही नहीं थे, उनके सबसे घनिष्ठ मित्र भी थे। मुझे बचाने की ही चेष्टा में उनके प्राण गये हैं।’

‘आपको क्या इस बात का सन्देह पहले से था कि आपके ऊपर आकरण होनेवाला है।’

की तरह मानने लगे थे। इस खत को पाते ही मैंने उनको टेलीफोन किया। उन्होंने मुझे खत की स्थानीय पुलिस को दिखला देने की सलाह दी। यह भी कहा कि बीमार होने पर भी वे जल्दत होते ही आयेंगे।'

'आपने खत पुलिस को दिखला दिया था?'—सिल्वर ने पूछा।
 'हाँ, वहाँ के सार्जेंट ने इस बात को मजाक़ समझा, फिर भी रात को दस बजे उसने दो आदमियों को लिली तालाब पर यह देखने को भेजा कि वहाँ कोन आता है। पर कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मुझे दूसरा खत मिला।'

लड़की ने वह दूसरा खत भी सिल्वर को दे दिया। उसमें लिखा था—

'यह आखिरी मौका है। मेडोलेन की मोड पर दस बजे रात को पॉच सौ पौँड लेकर आ जाओ। अबेली ही आना।'

'पाइन लैंड्स में ओक वृक्ष के नजदीक की भाड़ियों में तुम्हारा कुत्ता फिज है। उसके गले में कुछ बैधा हुआ है। उसे हमारा उपहार समझना। अगर आज रात को तुम नहीं आयेगी तो इसी तरह तुम्हें सूचित कर दिया जायगा कि एक सप्ताह के अन्दर तुम्हारी जान ले ली जायगी।'

ओरियल ने एक लाल, अण्डाकार वस्तु सिल्वर के हाथ में खड़ी और रुहा—मेरा कुत्ता वहाँ भाड़ियों से भय पड़ा हुआ था। वह कुत्ता मेरे पिता के बक्क का था। मैं उसे बहुत चाहती थी। यह चीज़ एक लिफाफे में उसके गले में लटकी हुई थी। मैंने तुरन्त पुलिस को खबर

‘क्या आप उन सब लोगों का नाम कृपा कर मुझे लिख देंगी जो यह जानते थे कि आप कहों पर हैं ?’

‘अगर आप चाहें तो मैं लिख दूँ, किन्तु उससे आपका कोई लाभ न होगा ।’ इतना कहकर ऑरियल ने नामों की फेहरिस्त बनाकर सिल्वर को दे दी ।

सिल्वर ने पूछा—“आप यह क्यों समझती हैं कि इससे मेरा कोई लाभ नहीं होगा ।”

“इसलिए कि इन व्यक्तियों पर सन्देह किया ही नहीं जा सकता ।”

‘अच्छा, आप अपनी कहानी कहिए । आपको जब यह लाल पत्थर मिला उसके बाद क्या हुआ ।’

‘हाँ, मैं भी पहले इसे पत्थर ही समझती थी, किन्तु इसका असली नाम है ‘रांगा छीमी’ । मैंने मिस्टर कैन्सटन को तुरन्त टेलीफोन किया । वे बहुत घबरा गये । उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक घर के बाहर न निकलूँ जब तक वे आ न जायें । यद्यपि वे अच्छे नहीं हो पाये थे, फिर भी उतना रास्ता तय कर कल मेरे पास आये । उन्होंने मुझसे साफ-साफ कहा कि तुम्हारा जीवन इस समय खतरे में है, इसलिए पूर्णतया मेरे सरक्षण में आ जाओ । उन्होंने मुझे सावधान कर कहा कि शत्रु किसी भी समय तुम्हारे प्राण ले सकते हैं । उन्होंने इसमाले में मुझे स्काट्लेएड यार्ड की सहायता लेने की सलाह दी, ताकि वात जहाँ की तर्ह रोक दी जाय अन्यथा मेरे ये गुप्त शत्रु इसी तरह मुझमाझे रहेंगे ।’ लड़की ने उत्तर दिया ।

‘तब उस हालत में, विना आपका पीछा किये हुए, कोई यह से जान सकता है कि आप इस होटल में ठहरी है?’—सिल्वर पूछा।

आँगियल ने उत्तर दिया—‘यह ठीक है, किन्तु जब कभी मैं लन्दन हत्ती हूँ तब इसी होटल में ठहरती हूँ। और यह बात बहुत लोगों ने मालूम है।’

*

>

L

ग। मरते समय उन पर किसी का एक पैसा बक्काया नहीं था। फिर, उनकी आमदनी भी काफी थी, वे किसी का कुछ बाकी क्यों रखते?

‘अच्छा, हत्या के विप्रय में क्या आपका किसी पर सन्देह है?’

‘किसी पर नहीं।’

‘मैं जानता था कि आप ऐसा ही उत्तर देगी तभी जादू न जानने की मैंने कही थी। पुलिसवाले भी किसी आधार पर ही काम कर सकते हवा में नहीं।’

‘मैं समझती हूँ, इन्स्पेक्टर, पर क्या करूँ? मेरा सन्देह किसी पर नहीं नहीं।’

इन्स्पेक्टर को सहसा एक बात सभी। उसने पूछा—आपने जब ले पहल इस चीज़ को देखा था तब समझा था कि यह कोई पथर पर अब आप कह रही हैं कि यह एक प्रकार की छोटी का फल है। कैसे?

अब सिल्वर ने वह चीज ओरियल के सामने कर दी जो उसके ने के गले मे लिफाफे मे बँधी मिली थी और जो बाद में स्वयं ओरियल के पास भी आई थी। ओरियल ने देखफर कहा—हों, कही कह रही हूँ। यह फल दक्षिणी अफ्रीका में होता है और बहुत हरीला होता है। वहों के—विशेषकर जुलूलै ड के—काले निवासियों में बहुत अमङ्गलजनक भी माना जाता है। यदि वहों का कोई निवासी सी की हत्या करना चाहता है तो पहले उसके घर के आसपास यही न विघ्वर देता है और इस तरह अपने शिकार को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। एक बार ऐसा कर चुकने पर फिर या तो वह स्वयं मरेगा या

2.

H_f

‘आपका वह पड़ोसी मित्र कौन था, जिसने आपको उस फल का हस्यमय इतिहास बतलाया ?’

‘ये वही हैं जिनसे पिताजी ने वह जमीन खरीदी थी—मिस्टर रैलैण्ड। इन्हे पिताजी बहुत मानते थे और आदर करते थे। उस जमीन को पिताजी के हाथ बेचकर ये कही और चले गये। बहुत दिनों तक पिताजी से इनका सब धूटा सा रहा। उसके बाद ट्रान्सवाल के एक अस्पताल में, धूटा पैर लिये थे, बहुत दुखी अवस्था में पड़े थे जब पेताजी इनसे मिले थे। ‘मैरसवेल खान’ दिनोंदिन उन्नति कर रही थी। पिताजी न जाने क्यां यही समझते थे कि अपनी सफलता के लिए वे रैलैण्ड के आभारी हैं। यद्यपि कानून यह समझने की कोई जरूरत नहीं थी, किन्तु पिताजी को वह जमीन बहुत सस्ते में मिल गई थी न। सौभाग्य से ही पिताजी इतने धनी हो गये, यद्यपि एक समय ऐसा भी था जब रैलैण्ड और वे, करीब-करीब भूम्ये रहकर भाग्य से एक साथ युद्ध कर रहे थे। उन्हीं दिनों वे रैलैण्ड को मानने लगे थे।’

ओरियल अब चुप हो गई।

सिल्वर ने कहा—तब ?

‘डाकटरो का कहना था कि रैलैण्ड का धूटा पाँच कभी ठीक न होगा। पिताजी जानते थे कि एक व्यवसायी के लिए यह कितने सकट की बात है। उन्होंने एक हजार पौंड वार्पिक रैलैण्ड के लिए चांध दिया। फिर वे अपने दो लड़कों के साथ आकर हमारे मकान के पास ही विंगफोर्ड में रहने लगे।’

चार—

बुधवार की रात, १५ दिसम्बर

ऑरियल ने टेलीफोन करके ट्रैन में भेट होनेवाले युवक पीटर को होटल में बुलाया था, इसका जिन्ह पहले परिच्छेद में किया जा चुका है। सिल्वर से छुट्टी पाकर वह पीटर के पास आई जो यदों देर से बैठा उसका इन्तजार कर रहा था। उदास और थके हुए मुख से बैठते हुए उसने कहा—माफ कीजिए, मैंने व्यर्थ ही आपको इस मामले में परीशान किया। पर अभी तक पुलिस किसी पर सन्देह नहीं कर सकी है। हत्यारा मेरी हत्या करना चाहता था। मैं आपको सब बताती हूँ।

ऑरियल ने सब बातें पीटर से कह सुनाईं। पीटर ने एक ओर देखते हुए पूछा—क्या वे पुलिस अफसर हैं?

‘हाँ। वे लम्बे तगड़े सजन स्कॉटलैण्ड यार्ड के जासूस इसपेक्टर सिल्वर हैं। उन्हीं के जिम्मे यह मामला है।’

पीटर ने लम्बी सर्स लेकर कहा—यह ब्रैमफोर्ट होटल आपके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ आप रात कैसे वितावेगी? स्वैर, आशा है, अब विपत्ति दूर हो गई है।

ऑरियल ने कहा—ट्रैन में आपके सहानुभूतिमय व्यवहार से मुझे साहस वैधा था। मैं उसी समय बातचीत करना चाहती थी, किन्तु मिस्टर कैन्स्टन के कारण चुप रह गई। जब मैंने उन्हें यहाँ

अच्छा, आपके वे दो विश्वासी मित्र कोन हैं? वे क्या आज रात को आपके मकान पर रह सकेंगे?—पीटर ने पूछा।

ऑरियल—उनका नाम है लुईट्रिमेन। वे मुझे बहुत चाहती हैं। वे और उनके पति डिक मेरे कहने से सब कुछ कर सकते हैं।

पीटर ने कहा—‘तो उन्हें टेलीफोन कर दीजिए कि शीघ्र आपके मकान पर आ जायें। इस बीच मैं कॉलिन्सन को देखता हूँ। अगर वह मिल गया तो हम तीनों आपके घर पाटनलैण्ड्स चले चलेंगे और वहाँ निश्चिन्त होकर बातचीत होगी।’ म्यो न?

ऑरियल ने खुश होकर कहा—ठीक है। मेरे मकान में जगह की कमी नहीं है। सब लोग आराम से रह सकते हैं।

पीटर ने टेलीफोन उठाकर घर पर नौकर से कहा—‘मेरा एक सूटकेस, कपड़ों से ठीक-ठाक कर, रिवाल्वर रखकर, टैक्सी किराये पर करके ब्रैम्कोर्ट होटल चला आवे। वहाँ पीटर की मोटर में सब सामान रख दे।’ नौकर ने सुना तो चक्रा गया। इतनी रात को स्वामी रिवाल्वर और सूटकेस लेकर कहाँ जायेंगे! लेकिन नौकर का धर्म तो हुक्म मानना ही है। इस बीच पीटर ने ‘डेली बंजट’ के दफ्तर में टेलीफोन किया। दूसरी ओर से आवाज आई—

‘नहीं, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। मैं थियेटर देखने गया था। अभी घर जाते वक्त, करीब तीन मिनट पहले, दफ्तर आया हूँ। हाँ, अगर तुम कहो तो आ सकता हूँ। पर भाई, यह बात क्या है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, पर मेरे लिए प्रतीक्षा मत करो। अपनी मोटर

पाँच -

बुधवार की रात, १५ दिसम्बर।

अतिथि सत्कार और अभ्यागतों की सेवा का भी एक समय होता है। बहुत रात बीते यदि कई अतिथि सहसा घर पर आ जायें तो घर के स्वामी के साथ ही नौकरों को भी परीशानी होती है। ऑरियल के घर—पाइनलैण्डस्'—के नौकर इस समय इसी बात पर तर्क-वितर्क कर रहे थे। रसोईघर में रसोईदारिन ब्राउमैन और घर की दासी केट बैठकर कुछ बात कर रही थी उसी समय खानसामा मास्टर्स अन्दर आया। रसोईदारिन ब्राउमैन लगभग पन्द्रह वर्ष से उस घर में काम कर रही थी। दासी केट, जो लगभग १६-२० वर्ष की युवती थी, लगभग दो महीने से, नौकर रखी गई थी।

मास्टर्स ने भीतर घुसते ही कहा—वह अखबारवाला फौलिन्सन आया है।

केट ने उत्सुकता से पूछा—वे कैसे हैं मास्टर्स?

'मैं समझता था, वे रोई बड़े बूढ़े आदमी हांगे, पर वे तो अभी नवयुवक ही हैं। डेली बजट' में मैंने अपराध और अपराधियों पर इनके बहुत से लेख देखे हैं। मिस ऑरियल का कहना है, वे यहाँ कुछ दिनों रहेंगे।'

बाउमैन ने सांस लेकर कहा—हो सकता है, पर यह तो पुलिस पता लगायेगी ही। अगर लगा सकती तो ..

खानसामा ने बात काटकर कहा—जान पड़ता है, तुम्हें पुलिसवालों र भरोसा नहीं है।

‘बिलकुल नहीं। अगर तुम्हारी शादी भी, मेरी तरह, किसी पुलिस वाले से हुई होती तो तुम भी ऐसा ही समझते। मेरे पति भी पुलिस कर्मचारी ही थे। अब तक तो उन्हें पेनशन मिलती होती, अगर गश्त लगाते वक्त नशे की हालत में न पकड़े गये होते।’

केट ने पूछा—क्या वे अभी जीवित हैं?

‘क्या जाने। मैंने कभी पता लगाया नहीं, और न लगाना चाहती हूँ।’

अब मास्टर्स ने कहा—लेकिन इस मामले में तो स्काटलैण्ट यार्ड का हाथ है। जासूस इन्सपेक्टर सिल्वर पता लगा रहे हैं।

बाउमैन ने उठते हुए कहा—जो हो। मास्टर्स, ताले-वाले लगा दिये हैं न? रात ज्यादा हो गई।

‘हों।’

‘यह अच्छा है कि घर में चौरों से बचने के लिए घटिया लगी हैं। मैं सोते समय शोर-गुल नहीं चाहती। चलो केट, चलो। अँह, पता लगे या न लगे, नीले लीले।’ दरवाजे तक जाकर वह फिर मुड़ी और ‘नीन को क्या

चृ.—

हस्पितिवार का प्रातःकाल, १६ दिसम्बर।

दूसरे दिन तड़के ही पाइनलैण्डस के पोर्टिको में एक मोटर आकर गी। घटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलते ही मास्टर्स ने देखा कि म्या तगड़ा व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा—मैं मिस मैक्सवेल से मिलना चाहता हूँ। यह लो कार्ड।

मास्टर्स ने कार्ड देखकर, इज्जत के साथ कहा—आहए, आहए इन्सपेक्टर साहब। क्या आप कृपाकर यह बतायेंगे कि कोई गिरफ्तारी ई या नहीं।

‘अभी नहीं।’ कहकर इन्सपेक्टर मास्टर्स के साथ भीतर कमरे में आ। थोड़ी देर बाद ऑरियल के आने पर इन्सपेक्टर ने कहा— गपने जो नामों की सूची मुझे दी थी उसमें मिस्टर रिचर्ड ट्रिमेन का भी नाम था। मैं उनसे मिलने उनके घर गया तो मालूम हुआ कि वे नहीं हैं। मैं उनसे तथा मिस टिवेट से मिलना चाहता हूँ। जरा उन्हें बुलाहए।

ऑरियल जाने लगी तो इन्सपेक्टर ने रोककर कहा—मुझे आपकी उत्त्सा की बड़ी चिन्ता है।

ऑरियल ने कहा—लेकिन वहाँ क्या ढर है? मैं तो अपने गर पर अपने विश्वासी मित्रों और नौकरों के साथ हूँ।

‘ठीक है, पर मुझे भय है, कि हत्यारा आपके नजदीक ही है।’

‘तो आपके समय में तो मिस ऑरियल चिलकुल बच्ची रही गी !’

‘जी हॉ । जब मैं यहौं आई तब वे पर्च बगस की थीं ।’

इन्सपेक्टर ने अनुभव किया कि यह सब बताते हुए मिस तिवैट को गारी कष्ट हो रहा है । इनसे भी किसी को खतरा हो सकता है, इसपर न्सपेक्टर को तो विश्वास ही नहीं हुआ । उसने कहा—‘मैं समझता हूँ, फूल की घटना से आपको बहुत दुःख हुआ है । क्यों न ?’

‘जी हॉ । जबसे उस कुत्ते की मृत्यु हुई और मिस ऑरियल को आणों की धमकी दी गई तभी से मैं पूरी नीद से भी नहीं सकी । अब तो मस्टर क्रैन्सटन की हत्या के बाद यह सब वर्दाश्त के बाहर हो गया है । मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि बेचारी ऑरियल पर कोई विपत्ति जल्द ही आनेवाली है । मैं उसे बहुत चाहती हूँ इन्सपेक्टर, पर दया करें, मेरा कोई वश नहीं ।’

सिल्वर ने कहा—‘आप हमारी सहायता करे तो आपकी मिस ऑरियल सुरक्षित हो सकती है ।’

‘कैसे ?’

‘मेरे सवालों का सही-सही जवाब दीजिए । अब तक तो मैं अँधेरे में ही भटक रहा हूँ । हत्यारे ने होटल में भी आपना कोई निशान नहीं छोड़ा, नहीं तो आसानी से पता लग जाता । मैं समझता हूँ, जब आप इस परिवार के साथ इतने दिनों से हैं तो परिवार के सभी व्यक्ति आप पर विश्वास भी करते रहे होंगे ।’

‘हाँ, दो या तीन रुपत उन्होंने भेजे थे पर मैंने उन्हें सावधान कर दिया था कि लिफाफो पर आपने हाथ से पते न लिखा करे। हम लोग इस बात की पूरी चेष्टा करते थे कि गाँव में कोई यह न जानने पावे कि वे कहाँ हैं।’

‘क्या आपके पास यह समझने का कोई कारण था कि उस गाँव में ही कोई उन धमकी भरे पत्रों को भेजनेवाला हो सकता है?’

मिस टिवैट तुरन्त जवाब न देकर चुप रही। अन्त में उसने कहा—
‘मैं कुछ नहीं समझती थी।’ उसकी गहरी, भूरी आँखें सिल्वर की आँखों से जा मिलीं। सिल्वर को जानने की उत्सुकता हुई कि उन आँखों की उस तेज़ दृष्टि का रहस्य क्या है। उसने पूछा—‘क्या आपको यह सन्देश या कि मिस मैक्सवेल के शत्रु भी हो सकते हैं?’

‘नहीं।’

‘अगर मिस्टर क्रैन्सटन की तरह विपत्ति मिस आँरियल पर भी आये तो उससे तो आपको गहरा धक्का लगेगा।’

तिवैट के ओठ हिले, कौपने लगे, चेहरा सफेद, फँ हो गया। उसने धीरे से कहा—‘ज़रूर। मुझे बहुत चोट लगेगी।’

ती सुनिए मिस टिवैट, आप लोगों की सहायता से ही हम हत्यारे को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या आप पास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिस पर आपको सन्देश है?’

‘अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही न बतला देती।’

यह सच हो तो क्या टिवैट को उतने रूपयो का मोह नहीं हो सकता ? अगर हो तो आश्चर्य ही क्या है ? इसी समय मिस्टर ट्रिमेन अपनी बीबी के साथ कमरे मे आ गये । उनके बैठ जाने पर सिल्वर ने कहा — ‘मुझे आप लोगो से कुछ पूछना है । क्या मिस मैक्सवेल ने आप लोगों को यह लिख भेजा था कि वे कहें हैं ?’

‘नहीं । यहाँ से जब ऑरियल जाने लगी तब हम लोग लन्दन के एके होटल मे छुट्टियाँ बिता रहे थे । ढोवर जाते वक्त वे हमारे होटल मे उतरी और वही हम लोगो को बताया कि कहाँ और क्यों जा रही हैं । और जैसी स्थिति उन्होंने बताई, उसमें तो उनके लिए यही ठीक था कि यह जगह छोड़ दे ।’

‘अच्छा, और किसी ने तो आप लोगो की बात नहीं सुन ली ?’

‘मिस्टर क्रैन्सटन कमरे मे ही थे । उन्हीं ने सुना होगा ।’

‘आपने उनके गाँव के पते पर ख़त भेजा था ?’

लुई (बीबी ट्रिमेन) ने जवाब दिया — ‘नहीं इन्सपेक्टर ! हमें नहीं मालूम था कि वे वहाँ कुछ दिन ठहरेंगी । ऑरियल निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती थीं ।’

‘क्या आप लोग भी यह समझते थे कि उनका जीवन घरतेरे मे है ?’

‘मिस्टर क्रैन्सटन ने सब बता दिया था ।’

डिक (मिस्टर ट्रिमेन) और लुई (बीबी ट्रिमेन) से भी कोई बहुत काम की बात सिल्वर को नहीं मालूम हो सकी । ऑरियल से छुट्टी माँगकर जब वह पाइनलैरड्स से जाने लगा तभी एन्डी कौलिन्सन

र ढाला। अब हत्यारा इसी बात की चेष्टा में होगा कि जब तक सके, लोगों की नजरों से दूर छिपा रहे। फिर भी तुम और म्हारे दोस्त पीटर रात भर यहाँ उसकी प्रतीक्षा करते रहे और मैं भी रात र जागता रहा।'

कौलिन्सन ने थोड़ी देर बाद पूछा—‘अच्छा, मिस तिवैट से क्या लूम हुआ?’

‘कोई खास बात नहीं।’

‘और डिक और लुई ट्रिमेन। मैं समझता हूँ कि पाँच सौ पौंड के ऊपर वे यह काम न करेंगे।’

‘नहीं, मैं उन्हें हत्यारा नहीं समझता। मैं सोच रहा हूँ कि आँस्यिल न पता जाननेवाले जो छ. आदमी जीवित हैं, उनमें से किसके द्वारा यह त्रिवर फूटी कि आँस्यिल कहाँ हैं। डिम और ट्रिमेन का कहना है कि उन्होंने किसी से नहीं बताया और मैं इसे सही समझता हूँ।’

‘आँस्यिल ने क्या एक लड़की का नाम और बताया था?’

‘हाँ, उसका नाम सुसेन ली है। हैम्पस्टेड के लिटसले मैन्शन में उसके मकान पर मैं आज गया था। वह चित्रकार है और अपनी आ-जीविका स्वयं उपार्जित करती है। वह साधारण लड़की जान पड़ती है। घर आदि देखने से जान पड़ता है कि वह अपने काम भर धन स्वयं कमा लेती है। अभी उसके बारे में ज्यादा छानबीन मैं नहीं कर सका हूँ।’

‘इसी नाम का एक और प्रसिद्ध चित्रकार भी तो है।’

‘तब तो यही जान पड़ता है कि लौरिमर क्रैन्सटन द्वारा ही यह तत्फ़ूटी थी।’

‘ताज्जुब है। क्रैन्सटन को सबसे अधिक ऑरियल की रक्षा का वयाल था। फिर भी एक बार गॉव जाऊँगा।’

सिल्वर की गाढ़ी पास ही खड़ी थी, वह उस पर सवार हो गया।

‘और आप मिस ऑस्ट्रियल के पिता मिस्टर मैक्सवेल को भी ने थे ।’

“देखिए, और कुछ बताने के पहले मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछना चाहूँ। तब हमारी वातचीत में आसानी होगी। क्या आपका ल है कि मिस्टर कैन्सटन की हत्या मैंने की है ।”

इस प्रश्न पर सिल्वर चौका। उसने रैलैण्ड की आँखों में चतुरता से ऐहुए कहा—क्यों ! क्यों ! आपको यह भ्रम कैसे हुआ ?

‘मैं नहीं जानता, आप लोग जॉन्च पड़ताल कैसे करते हैं, पर मैंने देखा कि लोग जरा ज़रा से सन्देह पर कॉसी पा जाते हैं। मुझ पर भी आप ह कर वैठे तो आश्र्य ही क्या ? सुनिए, मुझे इसकी चिन्ता नहीं ऑस्ट्रियल क्या समझती है। तम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह तेह हैं। वह जानती है कि अगर मुझे पता लग जाय कि उसे किसने लीफ पहुँचाई है तो मैं उस आदमी का खून पी जाऊँगा। शायद मैं किसी ने मिस्टर मैक्सवेल की वसीयत की बात बताई होगी।’

सिल्वर ने सोचा कि इस समय स्पष्टवादिता ठीक नहीं, उसने —“नहीं !”

रैलैण्ड को आश्र्य हुआ। उसने पूछा—‘क्या आप विश्वास दिलाते के आपको इस विषय में कुछ नहीं मालूम है ?’

‘मैं केवल इतना जानता हूँ कि मिस्टर मैक्सवेल ने आपके लिए एक गार पौर्ण प्रतिवर्ष वॉध दिया है।’

‘अच्छा तो सुनिए। मिस्टर मैक्सवेल की सारी आमदानी—ज़ूँ न से होती थी जो मेरी उस जमीन पर थी जिसे

$y^{(1)}$

$\frac{\partial}{\partial y_{ij}}$

जाना कि जुलूलैएड-निवासी इस चीज को मरने-मारने के काम में है ।”

‘ऑरियल ने मुझसे कहा था ।’

‘ठीक है, पर वह तो जब बच्ची थी तभी वहाँ से चली आई थी और गई भी नहीं । उसने कैसे जाना ।’

‘रैलैएट ने उसे हाल में ही बताया था’—सिल्वर ने जवाब दिया ।

‘सुबह के अख्यावार में खबर पढ़कर मैं घबरा गया और तुरन्त यहों
। आ रहा हूँ ।’—उन्होंने पीटर की ओर तेज़ निगाहों से देखते हुए
।—‘हों तो मामला क्या है ?’

‘कुछ तो नहीं ।’

‘तब ठीक है । तुम जानती हो कि कल रात मैं कहाँ रहा ?’

‘मैं समझती थी, आप अभी होटल में ही हैं ।’

‘हाँ, मैं हफ्ते भर से ब्रैम्कोर्ट होटल में ठहरा हुआ हूँ । कल रात
। सोया था । रात को जब होटल पहुँचा तब तो इस घटना के बारे
। सुना नहीं ।’

गान पड़ता है, पीटर को इस व्यक्ति पर कुछ सन्देह हो रहा था ।

चेहरे से यही जान पड़ता था । ऑरियल ने उधर देखते हुए
—‘मिस्टर पीटर, हॉलैंड आने पर मिस्टर विचन ब्रैम्कोर्ट होटल
ठहरते हैं ।’

‘अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है ? घूमना-फिरना चाहो तो मेरे
अमेरिका क्यों नहीं चलतीं । कल सवेरे ही जहाज जानेवाला
मैंने एक कमरा अपने लिए रिजर्व करा लिया है, अगर चाहो तो
। लिए ।’

ऑरियल ने कहा—“मैंने तय कर लिया है कि मैं कहाँ नहीं
गी ।”

‘तब तो बात ही दूसरी है । मुझे वहाँ कोई ज़रूरी काम नहीं है ।
मैं अब नहीं जाऊँगा । अच्छा, मैं अभी आया, मौटर पर से एक
। लेता आऊँ ।’

आँरियल—‘उनसे तुम्हारा क्या काम सधेगा इन्सपेक्टर ! मैं को जानती हूँ। छोटा लड़का केनेथ बाईस वरस का है और विलकुल ने पिता की तरह ही है। वहाँ भाई डन्कन शायद खानों का जीनियर है।’

सिल्वर—‘क्या वे रौलैण्ड के साथ ही रहते हैं ?’

आँरियल—‘हाँ। केनेथ वहाँ उद्यमी है। अभी साल भर ले उसकी इच्छा दक्षिणी अफ्रीका जाने की हुई थी, पर पिता के रण रह गया।’

सिल्वर—‘क्या दोनों भाई काम-काज करते हैं ?’

आँरियल—‘नहीं, केवल केनेथ करता है। उसने गाँव में टरो के रखने का एक गराज खोला है। लेकिन आप उन लड़कों के पथ में क्यों इतने उत्सुक हैं ?’

सिल्वर—‘क्या डन्कन भी वहाँ काम करता है ?’

आँरियल—‘नहीं। डन्कन कोई दिमागी काम करना चाहता। वह चालाक भी बहुत है।’

सिल्वर—‘अगर वह एक सफल इंजीनियर है और फिर भी चुप-आप पिता के साथ ही घर पर रहता है, तब तो कहना पड़ेगा कि वह अन्तिशील नहीं है।’

आँरियल उत्तर देने के पहले चण भर रुकी। उसको इस समय चपन की याद आ रही थी। जब वह छोटी थी तब रौलैण्ड के दोनों लड़कों के साथ खेलती-कूदती रहती थी। उन दिनों भी, डन्कन वहाँ रहने और चतुर होने के कारण, हर काम में आगे रहता था। अगर

सकता है। पर कुल आधा गैलन पानी ही दोनों आदमियों के पास, और ज्यादा कहीं मिल भी नहीं सकता था। यद्यपि घोर गरमी पड़ रही थी, फिर भी दो दिन और दो रात रैलैण्ड अपनी पीठ पर पिताजी को टाये चलते रहे और जब इस तरह निश्चित स्थान पर पहुँचे तब रैलैण्ड गल से हो गये थे। उस समय रैलैण्ड ने सहायता न की होती इन्सपेक्टर, पिताजी मेरे जन्म के पहले ही मर चुके होते।

सिल्वर मन ही मन समझ रहा था कि क्या मिस्टर मैक्सवेल रैलैण्ड इतना मानने लगे थे। फिर भी उन्होंने, ऑरियल की बात समाप्त करते ही पूछा—‘मा आपके पिताजी के वसीयतनामे की कोई नकल आपके पास नहीं है?’

‘है। अभी लाती हूँ।’

लगभग दो तीन मिनट बाद, ऑरियल के लाये वसीयतनामे को खते हुए सिल्वर ने कहा—‘जान पड़ता है, आपके पिताजी मिस तिवैट जा बहुत चाहते थे। क्यों न?’

ऑरियल—‘जी हूँ। कष्ट के दिनों में तिवैट ने मेरी माँ की बढ़ी ज्वा की थी और पिताजी किसी का उपकार भूलते नहीं थे। कम से कम, तिवैट पर मेरा पूरा विश्वास है। उसे आप इस भजाड़े में न टालें।’

इसी समय एक आदमी कमरे में आया। उसे देखते ही ऑरियल चिल्हा उठी—‘अरे टन्कन, तुम!’

टन्कन देखने में बड़ा रोशीला और राजा जैसा मालूम पड़ता था पर नजदीक से देखते ही पता लग जाता था कि उस रोश और सौन्दर्य

‘ नव—

इस्पतिवार की दोपहरी, १६ दिसम्बर ।

उस दिन लेटरबक्स मे केवल दो चीजें मिलीं । एक पत्र तो केट नाम था और दूसरा एक पैकेट था जिसे तश्तरी पर रखकर खानसामा मास्टर्स आँरियल के पास ले गया । उस समय आँरियल सुसेन ली से तचीत कर रही थी । उसका हाथ नियमानुसार ही तश्तरी पर गया । उस पैकेट पर नजर पड़ते ही वह चौक उठी । पैकेट रस्सी से सुन्दरता वैधा हुआ था और उसपर टाइप किया हुआ था—मिस मैक्सवेल । गालने पर भीतर एक दफ्ती का टब्बा निकला । उसका ढकना खोलते आँरियल चीर पड़ी । तुरन्त पीटर और सिल्वर दौड़कर आ गये । इन्होने देखा—रुई में लपेटा हुआ, एक वैसा ही फल था, जिसे हम हले ‘टॉगा’ फल कह चुके हैं ।

कमरे में मौत की सी शान्ति थी । सिल्वर दौड़कर बाहर निकल गया और मास्टर्स के पास पहुँचा । पूछा—‘जो पैकेट तुम अभी मिस प्रॉरियल को दे आये हो वह मिला कहो ?’

मास्टर्स—‘वह लेटर बक्स मे पड़ा हुआ था ।’

सिल्वर—‘कितनी देर हुई ?’

सिल्वर—‘चाहे जैसे जाना हो, वात सही है। यह तो बताओ, मैंन तुम्हें क्यों नहीं सुहाता। उसमें क्या खराबी है?’

मास्टर्स उत्तर देने में थोड़ा हिचकिचाया। वह नौकर था और कन उसकी स्वामिनी का मिन था, अतः उसके विषय में अपनी कोई देने में सकेच होना डन्कन के लिए स्वाभाविक था। सिल्वर के त जोर देने पर उसने कहा—‘हा सकता है कि मैं ठीक-ठीक पहचान न गा हूँ, पर मुझे लगता है कि डन्कन चिश्चासयोग्य आदमी नहीं है।’

अभी मास्टर्स की वात समाप्त नहीं हुई थी कि ऊपर से एक तेज ख की आवाज सिल्वर के कानों में पड़ी। उसे सुनते ही वह ऊपर ढा, पीछे, पीछे मास्टर्स भी भागता हुआ गया। ऑरियल के कमरे पास पहुँचकर उसने देखा कि आयरन सेफ खुला पड़ा है और जमीन कुछ खाली जवाहरत के टब्बे पड़े हैं। ऑरियल के नौकर-चाकर और हमान लोग भी चीर सुनकर दौड़े आये पर सिल्वर ने सबको रोक या। ऑरियल ने जमीन पर झुककर, सेफ और उन खाली टब्बो ओ और देखते हुए कहा—‘इन्सपेक्टर, सब कुछ चला गया। मेरे हीरे, तियों का नेकलेस, ऑँगूठियों सब कुछ। ओह।’

सिल्वर—‘क्या सब बहुत कीमती थे?’

ऑरियल—‘हाँ, उनका दाम लगभग पन्द्रह सौ पौँड था। लेकिन ग्राश्रय तो यह है कि चोरों ने सेफ को खोला कैसे?’

सिल्वर की इष्टि उसी समय ताले में लटकती हुई चामी पर पड़ी जैसे ऑरियल को दिखाकर उसने पूछा—‘इसे आपने कहाँ रखा था?’

‘हों, मैं इसे हमेशा खुला रखती हूँ।’

सिल्वर ने देखा कि खिड़की के उस पार एक बैल लगी हुई है जिसकी अवृत डालियाँ खिड़की तक पहुँचती हैं। उसने ओरियल से खोई हुई जों की एक फेहरिस्त बना डालने को कहा और यह भी कहा कि इस मेरे मैं तब तक और कोई न जाने पावे जब तक अँगुलियों के निशानों चिशेपद से मैं इसकी जाँच न करा लूँ।

फॉस—‘तुमसे किसने कहा ?’

जार्ज—‘मैंने आज सुबह के अख्यार में लन्दन के होटल के हत्याकाड़ी खबर पढ़ी और आज जवाहरत की चोरी भी वहाँ हुई है। अभी वहाँ का माली जुड़किन्स यहाँ आया था, वही कह रहा था।’

फॉस—‘स्कॉटलैण्ड यार्ड का एक जासूस इस मामले का पता लगा रहा है और अभी अभी मुझसे उससे बाते हुई थी। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से कुछ न कहो। इन्सपेक्टर सिल्वर इस मामले की जांच कर रहे हैं और मुझे उनकी सहायता करनी है। मेरा ख्याल है, त्यारा तुम्हारी इसी सराय में है ’

जार्ज ने बात काटकर कहा—‘क्या ? आपका मतलब है . . . ?’

फॉस—‘हाँ। वह आदमी, जो दो-तीन हफ्तों से तुम्हारी सराय में ढहरा है, क्या नाम है उसका.. स्मिथ . वही हत्यारा है।’

जार्ज अकेचका गया। उसने ध्वनकर कहा—‘पर ..पर उसने तो कोई बुरा काम नहीं किया !’

फॉस—‘छोड़ो इस भगड़े को। वह क्या कर रहा है इस समय ?’

इसी समय मालकिन—बीबी ग्रव—वहाँ आई और आते ही बोली—‘मैं कहती न थी जार्ज ! मुझे पहले दिन ही शक हुआ था पर तुमने माना ही नहीं ! स्मिथ ने क्या किया है सॉर्जेंट ?’

फॉस—‘अभी कोई पक्षा मामला उसके विरुद्ध नहीं है पर इस गाँव में आने वा कारण उसका अवश्य सन्देहजनक है।’

बीबी ग्रव—‘आप पहले ही मेरे पास आये होते तो मैं बताती कि मैं उसके बारे मे क्या सोचती हूँ। स्मिथ अच्छा ग्राहक है

बीबी ग्रव—‘देखिए इन्सपेक्टर। मैं काम-काज में लगी रहती हूँ। ठीक ठीक नहीं कह सकती कि कौन कब कहा जाता है। इतना भी हूँ कि उसने आज साढे बारह बजे खाना खाया था . . .’
तभी जार्ज बोल उठा—‘दो बजे के करीब मुझसे बाते कर रहा था, वे बाद बाहर गया और पाँच बजे के करीब लौटा।’

फॉस ने परीशान होकर कहा—‘इन बातों से काम नहीं चलेगा। इस से आप जाकर कह दीजिए, मैं उससे बाते करना चाहता हूँ।’

बीबी ग्रव—‘अच्छा। जब आवेगा तब कह दूँगी। अभी घण्टे पहले अपनी विले चुकाकर वह यहाँ से चला गया। मैं समझती हूँ, सबा छ, बजे की ट्रेन से लन्दन चला गया होगा।’

फॉस ने टेलीफोन करके सिल्वर और कौलिन्सन को भी वहाँ बुलाया। कुछ सुनकर सिल्वर ने पूछा—‘कल रात को स्मिथ लन्दन नहीं था।’

मालकिन ने जवाब दिया—‘नहीं, वह साढे दस बजे के करीब सो था।’

सिल्वर—‘फॉस, गाँव की सराय में ठहरना गुनाह नहीं है, इससे एक बात का पता चलता है। अगर स्मिथ का इस काड़ से कुछ भी सम्बन्ध था तो यह तय है कि यह यहाँ नकली में ठहरा हुआ था। मैं उसका कमरा देखना चाहता हूँ, तज ग्रिव।’

जिस कमरे में फॉस ठहरा हुआ था, उसकी पूरी जाँच के बाद भी मैं एक तौलिए के श्रलावा, जिससे फर्नाचर आदि पोछा गया था, और

ग्यारह—

स्पतिवार की रात्रि, १६ दिसम्बर।

यर्माड्सी के 'रोय एली' में एक छोटी दूकान पर साहन बोई गा था—'ऐ० क्रैन्ज—घडीसाज'।

रोय एली एक बहुत छोटी जगह थी। यहाँ न तो सुन्दरता भी छू थी और न व्यापार की दृष्टि से ही इसमें विशेष आकर्षण था। सटक बहुत पतली होने के कारण सवारियों भी नहीं आ जा सकती थीं। दो-एक छोटे छोटे लैप जलते रहते थे, कभी कभी वे भी बुझ जाते थे। ओडी दूर पर बाईं और एक पुराने कपड़ों की दूकान थी, एक मछली गी दूकान भी थी।

यह अच्छा ही था कि ऐ० क्रैन्ज के पास काम ज्यादा नहीं रहता था। वह बूढ़ा हो रहा था। दिन में घटो वह दूकान के सामने चुपचाप आ रहता, कभी कुछ पढ़ता और पाइप पीता रहता था। कभी कुछ गेंचता विचारता रहता था। वच्चे उसे बहुत चाहते थे। वे जब उधर से निकलते तब उसको ज़रूर छेड़ते। कभी कभी वह भूखे वच्चे जो पैसे भी दे देता।



मों की चीजें मैं कैसे ले लूँ । भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा पचास दे रुता हूँ । इतना ही मेरे पास है भी ।'

वह ज्यादा बात न करके दाम निकालकर गिनने लगा । वह जानता था कि चोरी की चीज बैचनेवालों को यदि नकद दाम मिलता है तो वे हुज्रत नहीं करते । दाम गिनकर उसने कहा—'लो कम्ब । तुम्हारी मरजी, बैचो या न बैचो ।'

बैचर ने पचास पौँड उठाकर जेव में रखे, सिगरेट सुलगाई और फिर दरवाजा खोलकर वह बाहर आया । इधर-उधर देखता हुआ जल्दी से रोय एली के बाहर हुआ और लन्दन के विशाल जनरव में लुप्त हो गया ।

इधर, उसी रात को सार्जेंट फॉस को नोंद न आ गई थी । वह न जाने स्थों वहुत बैचेन से जान पड़ता था । उसके मन मे बार-बार यही आ रहा था कि एक बार चलकर पाइनलैण्डस में देखा जाय कि वहाँ सब कुशल है या नहीं । इस इच्छा को उसने योङ्गी देर तक तो दबाया, सोने की व्यर्य चेष्टा की, किन्तु फिर एकाएक न जाने क्या सोचा और साइकिल लेकर वह सीधा पाइनलैण्डस पहुँच गया । उसने देखा कि निचले तले की एक खिड़की से रोशनी आ रही है, और सब व मरां मे ग्रॅंथेर है । शायद सब लोग सो रहे थे । वह पीछे की ओर गया, वहाँ भी एक खिड़की से रोशनी निकल रही थी । सार्जेंट ने धीरे-धीरे खिड़की के शीशे पर थपथपाया । मास्टर्स ने पीछे का दरवाजा खोलते हुए कहा—'अरे सार्जेंट, आप ? गश्त लगा रहे हैं ? आहए !'

उस का नवर मिलाने को कहा। तार के दूसरी ओर से जवाब
या—‘कौन ?’

‘आप पुलिस के आदमी हैं ?’

‘हौं, मैं हूं सार्जेंट फॉस। आप क्या चाहते हैं ?’

‘जल्दी यहाँ गर्ज में आइए। यहाँ किसी की हत्या हुई है।’

तुरन्त ही फॉस साइकिल पर वहाँ पहुँचा। लाश को देखते ही
उन्होंने कहा—‘अरे यह तो केनेथ है। तुम कौन हो ?’

ड्राइवर—‘मेरा नाम वर्टन है। मेरी मैटर का पेट्रोल चुक गया था,
उनी देखकर यहाँ आया तो यह दृश्य देखा।’

फॉस—‘तुमने कोई चीज़ यहाँ छुई है ?’

वर्टन—‘नहीं। केवल टेलीफोन किया था।’

फॉस—‘किसी को यहाँ से भागते देखा था ?’

वर्टन—‘नहीं।’

फॉस—‘मुझे अपना पता दो।’

ड्राइवर का पता नोट करके सार्जेंट ने केनेथ के ऊंगी जेव में हाथ
लालाओर एक मनीवैग निकाल लिया। उसमें सात पौँड दस शिलिंग
। फॉस ने टेलीफोन करके डाक्टर को बुला लिया था। डाक्टर के लाश
ख चुकने पर उसने पूछा—‘मेरे कितनी देर हुई डाक्टर ?’

डाक्टर—‘यह कहना कठिन है। शायद आधी रात के पहले
त्वा हुई है।’

चारह—

कवार की सुवह, १७ दिसम्बर।

इस समय जिस लड़के से जासूस इन्सपेक्टर सिल्वर बात कर रहे थे हैं केनेथ के थ्रॉफिस का कर्मचारी था। उसका नाम जिजर हॉब्स है। अभी वह रात के हत्याकाड़ का कोई हाल नहीं जानता था और ससे सब हाल इन्सपेक्टर ने कहना भी नहीं चाहा। जब काफी देर शेर गई और उसने अपने मालिक केनेथ को नहीं देखा तब पूछा— मालिक कहाँ हैं ?

सिल्वर—‘वे आज यहाँ नहीं आयेगे।

योद्धा देर तक तो हॉब्स ने कुछ सोचने की चेष्टा की, फिर मन में कुछ सन्देह उठने पर पूछा—‘क्या आप पुलिस के आदमी हैं ?’

सिल्वर—‘हैं।’

हॉब्स—‘शायद जासूस हैं।’

सिल्वर—‘हाँ, स्टाटलैण्ड यार्ड के। देखो जिजर, हम एक काम से यहाँ आये हैं। हम सरकारी आदमी हैं। हमारे सवालों का ठीक-ठीक जवाब दो। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसका नाम स्पष्ट है, जो गोल्डेन क्राउन में रहता था और जिसकी आवाज बड़ी फटी-फटी सी है ?’

‘टेबुल के कोने पर। यहाँ, इधर।’ इतना कहकर हाँ-म
। टेबुल पर हाथ धरकर ठीक-ठीक जगह बताई। सिल्वर ने उसे
‘दृष्टि दे दी। इसके थोड़ी देर बाद वे पाइन-लैएट्स आये जहाँ उनकी
नंबी कौलिन्सन से भेट हुईं।

कौलिन्सन ने कहा—‘सिल्वर, मेरे मन मे बार-बार यह बात आती
है कि यहाँ का कोई आदमी हत्यारा नहीं हो सकता।’

सिल्वर—‘भाई, मैं अभी कुछ ठीक नहीं कह सकता।’

कौलिन्सन—‘सैर, पर औरतों को तो हम आसानी से सन्देह से वरी
तर सकते हैं।’

सिल्वर—‘हाँ, पैचकश से किसी की हत्या करना औरतों के लिए ज़रा
प्रसाधारण जरूर है, पर अगर एक औरत पागल ही हो जाय तो वह क्या
न करेगी? सैर, फिलहाल उनको छोड़कर हम भद्दों पर विचार करे।
अपने को ही लो। तुम अगर किसी की हत्या करोगे भी तो जहर देकर
मारना ज्यादा पसन्द करोगे, पैचकश से नहीं। रहे तुम्हारे दोस्त मिस्टर
पीटर, सो उन्हें हम तुम्हारे कारण सन्देह-मुक्त कर देते हैं। ओटोविवन—
वह अमेरिकन व्यक्ति, यह श्रवश्य है कि उस शत ब्रैम्कोर्ट होटल में ठहरा
हुआ था जब कैन्सटन की हत्या हुई। . . ?’

कौलिन्सन—‘नहीं सिल्वर। यह सन्देह का कारण नहीं हो सकता।
लन्दन आने पर वह हमेशा उसी होटल में ठहरता है।’

सिल्वर—‘सैर, अब ट्रिमेन को लो। वह बहुत साफ़ आदमी है।
फिर उस बक्क वह लायन्सेरी में पढ़ रहा था। खानसामा दो-एक बार बर्तो
गया भी था। वह भी अलग हो गया और इस तरह खानसामा मास्टर्स

ई—केनेथ कुर्सी पर बैठा रहा होगा । कमरे में दूसरी कुर्सी नहा प्रतः हत्यारा या तो खड़ा था या टेबुल पर बैठा था । केनेथ लगभग पीट का आदमी था और चौट उसके माथे के करीब लगी है जिसमें पष्ट है कि वह बैठा हुआ था । जमीन पर खून गिरने के दाग एक गह पर हैं, जो यह सवित करता है कि हमले के बाद वह हिल नहीं सका ।'

कौलिन्सन—‘जान पढ़ता है, हत्यारे का विचार पहले से ही हत्या का था ।’

सिल्वर—‘ज़रूर । खैर, चलो भीतर चले । ज़रा तुम्हारे दोस्त से बातचीत करूँगा ।’

भीतर जाकर सिल्वर एकाएक बहुत गम्भीर हो गया । एक अजीब तरह उसने पीटर पर जमा दी, जैसे भीतर बाहर, चारों ओर से उसे पढ़ा चाहता हो । पीटर कुर्सी की एक बोंह पर, अधजली सिगरेट में लिये, बैठा हुआ था । थोड़ी देर तक गम्भीर दृष्टि से उसकी ओर तेज रहकर सिल्वर ने कहा—‘मिस्टर पीटर, ज़मा कीजिए, आप जिस चत्र रूप से इस मामले में शामिल हो गये हैं और मिस ऑरियल के छाप हो गये हैं, वह पुलिस की निगाह से सन्देहजनक हो सकता है ।’ परन्तु कौलिन्सन ने मुझे आपके बारे में सब बताया था, फिर भी उस कर्मचारी होने के कारण मैं स्वभावत आपके बारे में छानवीन रहा था । सन्देह का हमें कोई कारण उस जांच से नहीं मिला और लेस का कुत्तल आपके बारे में अब नहीं है । यह तो आप भी

है। यह तय है कि आप पर विपत्ति न आने देने के लिए हम सब कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप पाइनलैएड्स से कहीं दूर जायें। यह सच है कि किसी को इसका हक नहीं कि आपको से चली जाने का हुक्म दे, पर परिस्थितियाँ ही ऐसी आ गई हैं कि ज़रूरी हो गया है।'

'आॉरियल ने कहा—‘जब आपका ऐसा खयाल है तो मैं नहीं नहा सकती। आप मुझे कब जाने को कहते हैं?’

'पीटर—‘जितनी जल्दी हो सके, बने तो घरटे भर मैं ही और जब ये सब भगड़े तथा न हो जायें, आप बाहर ही रहें।’

'आॉरियल चुप रही। सिल्वर और कौलिन्सन की ओर देखकर ने कहा—‘मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मिस्टर किवन अमेरिका जाने को कह रहे हैं। क्या यह ठीक होगा इन्सपेक्टर?’

'सिल्वर—‘हमने हर पहलू से गौर किया है। उचित तो यही होगा आप कहीं एकदम अपरिचित स्थान पर रहें—हो सके तो नाम भी ल लें ताकि धमकानेवाला व्यक्ति आपको पा न सके। इस दृष्टि मैं समझता हूँ, कि मिस्टर किवन के साथ अमेरिका रहना या मिस्टर मेन के साथ सेन रहना, अथवा उन सभी छुः आदमियों के साथ हीं रहना जो आपका पता जानते हैं, हितकर न होगा। मैं चाहता हूँ, फिलहाल आप अपने तमाम मित्रों और परिचितों के सम्पर्क से रहें। मैंने मिस्टर पीटर को इस संबंध में एक सलाह दी है।’

'पीटर—‘हम चाहते हैं कि आप चुपचाप मेरी कार पर बैठ जायें और



र्य हुआ कि ओरियल के चलने-फिरने की आवाज़ क्यों नहीं
। उसने दरवाजे पर थपथपाया । कोई उत्तर नहीं मिला ।
(तेजी से थपथपाया ।

युकी सी नीखता कमरे में थी । सिल्वर ने दरवाजे का हैशडल
पर भीतर से ताला बन्द था । धक्का देकर उसने ताला तोड़ ढाला
र जो दृश्य देखा उससे उसके आश्चर्य वा ठिकाना न रहा ।
न मैक्सवेल कमरे के फर्श पर चित पड़ी हुई थी और उसके मुँह
कपड़ा पड़ा हुआ था । कमरे में एक विचित्र प्रकार की गन्ध
ई थी । मुँह पर का कपड़ा उतारकर सिल्वर ने फेंक दिया,
गल को खीचकर खिड़की के पास किया और सीढ़ी के पास आकर¹
पोटर को पुकारा—‘जल्दी करो, कौलिन्सन को लेकर ऊपर आओ ।’
पीछे तब तक गाढ़ी लाकर पोर्टिको में खड़ी कर चुका था और नीचे
प्रतीक्षा कर रहा था । आवाज सुनते ही वह तुरन्त भागा हुआ
(गया । सिल्वर ने जल्दी में कहा—‘क्लोरोफार्म सुँधाया गया है,
गाने की जरूरत नहीं, देखते रहो ।’

इतना कहकर सिल्वर नीचे आया और मकान के पीछे के बाग
पहुँचा जहाँ माली काम कर रहा था । ओरियल के कमरे की खिड़की से
से दिखाते हुए पूछा—‘क्या अभी किसी को तुमने उस खिड़की से
हर कूदते देखा है ?’

माली घबरा गया । उसने कहा—‘नहीं तो ।’

सिल्वर—‘यहाँ कितनी देर से तुम काम कर रहे हो ।’

डा जैसे मुझ कोई कमर मे हाथ डालकर पकड़ रहा है। मेरे कपड़ा भी तुरन्त रख दिया गया। वह व्यक्ति ज़रूर अन्दर ही गा।'

सिल्वर—'क्या वह मर्द था ?'

ऑरियल—'मैंने रहा न, मैं कुछ नहीं जानती। हों, उसका हाथ और या, इसका अनुभव मुझे हुआ था।'

सिल्वर—'मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चली जायें, बढ़ रहा है।'

टर, कौलिन्सन और सिल्वर के साथ ऑरियल नीचे उतरी और ने जाकर बैठ गई। पीटर ड्राइवर की जगह बैठा। गाढ़ी चली बाद सिल्वर ने कहा—'कौलिन्सन, ऑरियल वही भली और लड़की है, किन्तु परिस्थितियों ऐसी हैं कि उसे यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, आओ चलें। पहले उस कमरे की जाँच कर हों बैठकर हम बात कर ले फिर घर के अन्य आदमियों से तकर्ज़गा।'

मरे म आकर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद नाक और का पर्दा हटाया। उसके पाल्स एक पुराना स्नानगृह उछल पड़ा, कहा—'कौलिन्सन, जो शक मुझे

उग—वही व्यक्ति जिसने कासटन आर केनेथ की

न लगाकर खड़ा रहा था गो गो हम लोगों की यह तय है कि वर या न निःड़कों के साते,

1

2

3

4

5

न पढ़ा जैसे मुक्ते कोई कमर में हाथ डालकर पकड़ रहा है। मेरे पर कपड़ा भी तुरन्त रख दिया गया। वह व्यक्ति जस्ता अनंदर ही होगा।'

सिल्वर—'क्या वह भर्द था ?'

आॅरियल—'मैंने कहा न, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, उससा हाथ कठोर था, इसका अनुभव मुझे हुआ था।'

सिल्वर—'मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चली जाएं, फिराला बढ़ रहा है।'

पीटर, कौलिन्सन और सिल्वर के साथ आॅरियल नीचे उतरा आग कम्ही में जाकर बैठ गई। पीटर ड्राइवर की जगह बैठा। गाड़ी चली गई के बाद सिल्वर ने कहा—'कौलिन्सन, आॅरियल वही भली आर चैरी दी लड़की है, किन्तु परिस्थितियों ऐसी हैं कि उसे यहाँ से हटाना चैरी था। अच्छा, आओ चलें। पहले उस कमरे की जाँच कर लें जहाँ बैठकर हम बात कर लें फिर घर के अन्य आदमियों से जब चीत करूँगा।'

कमरे में आकर थोड़ी देर इधर-उधर देखने के बाद सिल्वर ने बाल के एक ओर का पदां हटाया। उसके पीछे एक पुराना रोशनदान

। सिल्वर उछल पढ़ा, कहा—'कौलिन्सन, जो शरू मुझे था, वही था। हत्यारा—वही व्यक्ति जिसने क्रैन्सटन और केनेथ की हत्या की—सी जगह कान लगाकर खड़ा रहा होगा और हम लोगों की बाते सुनता ही होगा। यह तथ्य है कि वह व्यक्ति सिङ्गकी के रास्ते, उस लता के

3

4

5

6



“ पङ्गा जैसे मुझे कोई कमर में हाथ डालकर पकड़ रहा है । मेरे राक्षस भी तुरन्त रख दिया गया । वह व्यक्ति जस्ता अन्दर नहीं होगा ।”

सिल्वर—‘क्या वह मर्द था ?’

ओरियल—‘मैंने कहा न, मैं कुछ नहीं जानती । हाँ, उसका एक कठोर था, इसका अनुभव मुझे हुआ था ।’

सिल्वर—‘मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चला जाएं ला बढ़ रहा है ।’

पीटर, कौलिन्सन और सिल्वर के साथ ओरियल नीचे उत्तर आरोग्य में जाकर बैठ गई । पीटर ड्राइवर की जगह बैठा । गाड़ी चला । के बाद सिल्वर ने कहा—‘कौलिन्सन, ओरियल वड़ी भली आर श्री लड़की है, किन्तु परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसे यहाँ से हटाना चाही था । अच्छा, आओ चलें । पहले उस कमरे की जाँच कर जहाँ बैठकर हम बात कर लें फिर घर के अन्य आदमियों से जाँचीत करूँगा ।’

कमरे में आकर थोड़ी देर इधर-उधर देखने के बाद सिल्वर ने गल के एक ओर का पर्दा हटाया । उसके पीछे एक पुराना रेशनदानी था । सिल्वर उछल पड़ा, कहा—‘कौलिन्सन, जो शक मुझे था, वही ग्रा । हत्यारा—वही व्यक्ति जिसने क्रैन्सटन और केनेथ की हत्या की—वी जगह कान लगाकर सङ्गा रहा होगा और हम लोगों की बातें सुनता हु जाएगा । यह तय है कि वह व्यक्ति सिङ्गकी के रस्ते, उस लता के

है। मैं यहों उपस्थित सभी का वयान लेना चाहता हूँ, जिससे पता चले
आप लोग उस समय कहाँ, क्या कर रहे थे और किसके साथ थे।
सन्देश में वयान ये थे—

ओटो के० किवन 'जलपान करने जाने के पहले बाहर धूम रहा
सबको भीतर भागते देखकर मैं भी भीतर आया।'

महाशय और श्रीमती हुपोय—'जलपान कर रहे थे।'

सुसेन ली—'जलपान समाप्त करके डाइग रूम में बैठी चिटियों लिए
थी।'

ट्रिमेन—'डाइनिंग रूम में अकेला बैठा जलपान कर रहा था।'

लुई ट्रिमेन—'अभी तक सोई हुई थी।'

मिस तिवैट—'अपने कमरे में ही बैठी, दिन के खाने-पीने की
सा कर रही थी।'

मास्टर्स—'भएडार-घर में काम कर रहा था और आवाज सुनकर
आया। रिचर्ड ट्रिमेन डाइनिंग रूम से भागा हुआ बाहर आया
पूछा—'क्या बात है मास्टर्स?'।'

मिसेज़ वाउमेन (रसोईदारिन)—'रसोईघर में अकेली थी।'

केट—'ऊपर कमरे साफ कर रही थी, और कुछ ही मिनट पहले
तिवैट भी उसे सहायता कर रही थी।'

नोट—केवल रिचर्ड ट्रिमेन और मास्टर्स ने ही सित्वर के दरवाजे
ने की आवाज सुनी थी। दूसरे लोग ट्रिमेन की पुकार सुनकर आये।
इ बाहरी आदमी आता जाता नहीं दिखाई पड़ा। किसी वयान की
बाई पर, केवल हुपोय को छोड़कर, भरोसा नहीं हो सकता।

सिल्वर—‘क्या तुम हाल में ही केनेथ से लड़े भगड़े थे ?’

डन्कन—‘मेरी समझ में नहीं आता कि आपका मतलब क्या है। से केनेथ से बहुत पटती नहीं थी, यह सच है, पर क्या इतने के ही इ मैं अपने भाई की हत्या करूँगा ? अभी कल ही, लन्दन जाने के लै, गणज में मुझसे उससे कहा-सुनी हो गई थी, पर वह मामूली तथा थी !’

सिल्वर—‘क्या मैं जान सकता हूँ कि कल किस बात पर लड़ाई हो थी ?’

डन्कन घबरा गया। उसने पूछा—‘क्या आप मुझ पर हत्या का सन्देह कर रहे हैं ?’

सिल्वर—‘जो भी लोग यहाँ हैं, सब पर मैं कुछ न कुछ सन्देह करता हूँ। तुम भी उससे वरी नहीं !’

डन्कन—‘केनेथ से और मुझसे अक्सर इस बात पर लड़ाई होती कि मुझे भय था कि पिताजी उसे मुझसे अधिक चाहते हैं। इसे भी सह लेता पर मैं देखता था कि व्यापार के नाम पर वह जो चाहता है, उसे मिल जाता है, और मैं पिताजी से कुछ नहीं गता था।’

सिल्वर—‘कल रात साढ़े चारह और बारह बजे के बीच तुम नहीं थे ?’

डन्कन—‘मैं केन्सिंगटन के फर्नविल स्ट्रीटवाले ब्लैकमूर होटल में उस समय से रहा था। ऐसे, यह तो हुआ। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि केनेथ की जान किसने ली ?’

इस समय दीन दुनिया भूलकर दोनों चले जा रहे थे । थोड़ी देर बाद एक मकान के सामने पीटर ने गाही लाफ़र सज्जी कर दी । भीतर जाते ही लगभग तीस वरस की एक सुन्दरी पीटर के सामने आई । उसने हँसना कहा—‘ओरे, पीटर ! मैं समझती थी, तुम पेरिस में हो ।’

पीटर ने चुपचाप ऑरियल को सामने कर दिया और दरवाजा बढ़ कर दिया ।

बूढ़े ने देखा कि इतनी ही देर में युवती के मुख का भाव बदल गया। अब तक तो वह एक सीधी-सादी व्यापारी थी, किन्तु अब उसके रे पर वह भाव आ गया था जो एक स्त्री के मुख पर उस समय आता जब उसका एक प्रेमपात्र सामने रहता है श्रथवा जब ऐसा व्यक्ति मने रहता है जो उसे प्यार करने का दम भरता है। वह आगन्तुक कि चीस वरस से कुछ ज्यादा आयु का था। सैन्धी उसके साथ लग गई थीं महीनों से व्यापार कर रहा था, फिर भी उसका असली नाम नहीं जिवा था, किन्तु जिस तरह का यह व्यापार था उसमें किसी का असली मान्याम जानना जल्दी नहीं होता। हीरे-जवाहरात ले आना, नक्कद दाम ना और आपसी विश्वास। बस, इतने की ही इस व्यवसाय में जल्दत ही। यह भी नहीं पता लगता था कि इस व्यापार में कोई साम्नीदार नहीं था वह अकेला ही इसे करता है। उस व्यक्ति ने क्वीनी की ओर देखते हुए कहा—‘रोज़ की तरह आज भी ७ बजे रात को वही रोज़न होगा क्वीनी।’

क्वीनी सिर हिलाफ़र, उठकर पास के कमरे में चली गई ताकि ये दोनों अपना काम खत्म कर लें। उसके जाने के बाद स्पाइक ने जेब से एक बरड़ल निमाला और उसे रोलकर टेबुल पर रख दिया। उसमें यह मूल्य हीरे-जवाहरात थे। आतशी शीशे की सहायता से उन्हें जाँच कर सैन्धी स्पाइक की ओर देराने लगा। योझी देर बाद उसने कहा—‘आज मैं अपने नियमों में से एक का उल्लंघन करना चाहता हूँ। क्यों, तुमसे और क्वीनी से यहुत घनिष्ठता होती जा रही है! क्या तुम समझते हो कि वह तुम्हें प्यार भरती है?’

i
t

1

f

y

\tilde{f}_{n_j}
 $\tilde{\varphi}_{n_j \rightarrow n_{j+1}}$

संघी—‘स्कॉलैण्ड यार्ट चालों के’ उनके काम में गदद पहुँचाना
रा पेशा नहीं है, पर उनका व्याल है कि उन जवाहरात का चोर गूर्ना भा-
इ। मैं समझता हूँ, उनका कहना ठीक है। देखो, एक बच्चा मा-
र्गिष्ठि वकील था। मुझमे एक गलती हो गई। अदालत ने फेसला
दिया कि मैं अपराधी हूँ। उसके बाद सम्मान-पूर्वक रहने का मेरे पास
कोई साधन नहीं रह गया और आज मैं एक कानून से अरक्षित व्यक्ति हूँ।
तुम कह सकते हो कि जो स्वयं ही ऐसा हो उसे दूसरे की आलोचना रखने
का अधिकार नहीं। यह सच है, पर यह भी सच है कि किसी गवानी
और हत्यारे के हाथ मैं उस लड़की को न पढ़ने दूँगा। मैं तुम्हें पहले
दिन पहचान गया था, पर यह अन्तिम बार इस सम्बन्ध में तुमसे बाते
न रहा हूँ। इतना विश्वास रखतो कि इसके पहले कि एक गवानी से
मका विवाह हो, मैं उस आदमी को गोली मार दूँगा। हाँ अब
माम की चात हो।


X

X

X

X

वर्माड्सी के ‘चिकेन हाल’ के पास एक छोटा होटल है—‘लैन्टन
मस्ट’। फौमसी के ग्रन्थ उसी जगह बैठकर अखगार पढ़ रहा था, साथ
वहाँ आने-जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को गोर से देखता जाता था।
ही देर इसी तरह देखते रहने के बाद वह होटल छोड़कर बाहर आया
और सावधानी से चलता हुआ ब्रिक्सटन पहुँचकर एक मकान में घुस
या। सामने ही एक गोरे झङ्क की युवती पड़ी। उससे उसने पूछा—
कहो लिल, सब कुशल है ?



6

h

1

t

j

s

l

-r

y

*

लिल—‘कुछ भी करो, जल्दी करो। मुझमे यह ज्यादा नहीं
त होगा।’

केम्प ने सहसा सामने का प्लेट हटा दिया। कहा—‘यही होगा,
रात को ही मैं उन चीजों को यहाँ से हटा दूँगा। लाओ, पैचकश
मैं अपना सेफ सोलूँ।’

सोनेगले रुमरे की एक आलमारी हटाकर, केम्प ने उसके नीचे की दरी
ट दी, फिर पैचकश से जमीन का एक तख्ता उभारकर उसके नीचे
एक डब्बा निकालकर जेव में डाल लिया। सब ज्यों का त्यों करके
ने ओवरकोट पहना। फिर चलने की तैयारी करता हुआ वह
—‘अब सब मुझ पर छोड़ दें। श्रगर मेरे पीछे सूधते-सूधते पुलिस
हुते यहाँ तक आ जायें तो उनसे कहना कि जहाँ चाहें, तलाशी लें।
हाँ, यह लो। इन्हे सँभालकर रखें रहा।’

अब केम्प ने जेव से नोटों का एक बरण्टल निकालकर लिल के हाथों
दिया और मुँह से सीटी बजाता हुआ वह बाहर निकल गया।
यह दशा अधिक देर तक नहीं रही। सीढ़ियों उतरकर सामने की
क पर आते ही वह बहुत सतर्क हो गया। उसके जी मैं आया कि,
पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए ये जवाहरात अधिक सुरक्षित थे, पर इस
जेव में लेकर चलना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। करीब
चौथाई मील चलने के बाद वह एक टैक्सी पर सवार हो गया और
मिनिस्टर के पुल पर उतर गया। उसका विचार जमीन के नीचे
नेवाली रेलों में से एक पर सवार हो जाने का था, पर उसी समय उसका
एक दूसरी टैक्सी पर गया, जिस पर से एक आदमी उतर रहा था

लिल—‘कुछ भी करो, जल्दी करो। मुझमे यह ज्यादा नहीं व होगा।’

केम्प ने सहसा सामने का प्लेट हटा दिया। कहा—‘यही होगा, यह को ही मैं उन चीजों को यहाँ से हटा दूँगा। लाओ, पैचकश में अपना सेफ खोलूँ।’

सेनेवाले कमरे की एक आलमारी हटाकर, केम्प ने उसके नीचे की दरी दी, फिर पैचकश से जमीन का एक तख्ता उभारकर उसके नीचे एक ढब्बा निकालकर जेव में डाल लिया। सब ज्यों का त्यों करके औवरकोट पहना। फिर चलने की तैयारी करता हुआ वह—‘अब सब मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरे पीछे सूँधते-सूँधते पुलिस नूचे यहाँ तक आ जायें तो उनसे कहना कि जहाँ चाहें, तलाशी लैं। हाँ, वह लो। इन्हे सँभालकर रखले रहो।’

अब केम्प ने जेव से नोटों का एक बण्डल निकालकर लिल के हाथों लिया और मुँह से सीटी बजाता हुआ वह बाहर निकल गया। यह दशा अधिक देर तक नहीं रही। सीढ़ियाँ उतरकर सामने की कंप पर आते ही वह बहुत सतर्क हो गया। उसके जी मे आया कि, पुष्पी के गर्भ में दवे हुए ये जवाहरत अधिक सुरक्षित थे, पर इस ह जेव मे लेकर चलना मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। करीब चौथाई मील चलने के बाद वह एक टैक्सी पर सवार हो गया और ट मिनिस्टर के पुल पर उतर गया। उसका विचार जमीन के नीचे लनेवाली रेलों में से एक पर सवार हो जाने का था, पर उसी समय उसका अन एक दूसरी टैक्सी पर गया, जिस पर ते एक आदमी उतर रहा था।

7

8


9

लिल—‘कुछ भी करो, जल्दी करो। मुझने यह ज्यादा नहीं
त होगा।’

केम्प ने सहसा सामने का प्लेट हटा दिया। कहा—‘यही होगा,
रात भी ही मेरे उन चीजों को यहाँ से हटा दूँगा। लाशों, पेंचकश
में ग्रपना सेफ खालूँ।’

सेनेवाले कमरे की एक आलमारी हटाकर, केम्प ने उसके नीचे की दरी
दी, फिर पेंचकश से जमीन का एक तख्ता उभारकर उसके नीचे
एक ढब्बा निकालकर जेव में ठाल लिया। सब ज्यों का त्यों करके
ओवरकोट पहना। फिर चलने की तैयारी करता हुआ वट
—‘अब सब मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरे पीछे सूँधते-सूँधते पुलिस
यहाँ तक आ जायें तो उनसे कहना कि जहाँ चाहिं, तलाशी लैं।
यह क्षेत्र। इन्हें सँभालकर रखें रहो।’

प्रब केम्प ने जेव से नोटों का एक बड़ल निकालकर लिल के हाथों
दिया और मुँह से सीटी बजाता हुआ वह बाहर निकल गया।
दशा अधिक देर तक नहीं रही। सीढ़ियों उतरकर सामने के
पर आते ही वह बहुत सतर्क हो गया। उसके जी मेरा आया था
पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए ये जवाहरत अधिक सुरक्षित थे, पर इर
जेप में लेकर चलना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। करी
चौथाई मील चलने के बाद वह एक टैक्सी पर सवार हो गया और
मिनिस्टर के पुल पर उतर गया। उसका विचार जमीन के नी
लनेवाली रेलों में से एक पर सवार हो जाने का था, पर उसी समय उस
नन एक दूसरी टैक्सी पर गया, जिस पर से एक आदमी उतर रहा था



चौदह—


वार का प्रातःकाल, १८ दिसम्बर।

‘सब ठीक है वेब ? पाइनलैड्स गये थे ?’

‘जी हैं, मैं साढ़े बारह बजे रात को आशानुसार वहाँ गया था ठीक था।’

सॉर्जेंट फॉस ने सिर हिलाया और बाइसिकिल पर रवाना हो गया। वानाशील नहीं था, पर मिस मैन्सवेल के खाली मकान में उसे एक रहस्य मालूम होता था। फिर, सिल्वर ने उसे उस मकान पर नज़ार रखने की शक्ति भी समझा दी थी। उस खाली मकान में भी कोई घटना उकती है, यद्यपि यह कहना असम्भव था, फिर भी अपने सन्तोष वं फॉस ने जॉच कर लेना ही ठीक समझा।

गम्भीर काली रात थी। जब फॉस वहाँ गया। पास पहुँचकर थोड़ा तक वह चुपचाप सुनता रहा, कहीं दूर से कोई कुत्ता चीख रहा था। एकाएक ऊपर के पेह पर एक उल्लू बोल उठा। वह लॉन पर मकान के फाटक पर पहुँचा और अपनी लालटेन से जॉच करना। देखते-देखते उसके मुख का भाव बदल गया। शाम को कीज्ञापनिधि में ही, उसने एक दियासलाई को तोड़कर दरबाजे के



न्द्रह—

र का प्रातःकाल, १८ दिसम्बर।

उस दिन फ़ॉम्सी केम्प देर में सोकर उठा। उठते ही उसके मन में यह ग्राई कि कहीं कुछ गडबड हो रही है। उसे कुछ अच्छा नहीं हा था। घर पर रहने के समय, वह लिल के सोकर उठने के पहले उ जाता था और उसके सोकर उठने तक उसके लिए एक कप चाय जाता था। खुद वह चाय नहीं पीता था। उसने सोचा कि शायद के अतिरिक्त और कोई स्त्री उसके योग्य नहीं हो सकती। वात भी थी। उसके दुःख के समय में भी वह सदा इसके साथ लिपटी अब वह एक भेस में रहता था और पूर्णतया लिल पर निर्भर लिल भी चुपचाप अपने बच्चों की देखरेख में जीवन के दिन व्यतीत ही थी। वह यही चाहती थी कि केम्प भलेमानसे की तरह रोज़ी बै। यद्यपि केम्प को यह वात कुछ ज़ंचती नहीं थी, फिर भी वह बार चेष्टा करना चाहता था। वह सोच रहा था कि यहाँ का भगाड़ा निवट जाने पर आल्ट्रेलिया चला जाय और वहाँ कोई री कर ले। एकाएक उसे उस जासूस का ख्याल आया जो उसका कर रहा था और तब उसने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। से तो पुलिसवाले मुझे तुरन्त ही खोज निकालेंगे। केम्प को यह भी

t

A

Q

ने 'ईवनिंग एको' पत्र की एक प्रति उरीदी। उसे लेकर वह चाय एक दूकान में घुस गया। उसमें मोटे अन्दरों में छुपा था—

मिस मैक्सवेल का पता बहुत गुस्त रखता गया है और उनके खाली न पर पूरी नजर रखती जा रही है।

सार्जेंट फॉस्ट का कहना है कि मकान की एक खिड़की में जो रोशनी होने देखी थी, उसके परिणाम स्वरूप आज ही वे कोई न कोई रक्षारी कर सकेंगे। जारूर इन्सपेक्टर सिल्वर का कहना है कि रक्षारी के पहले एक बहुत ही आवश्यक बात के प्रमाणित होने चाहिए है।

इतना पढ़ने के बाद केम्प के मुँह से अपने आप निकल गया—‘वह त यही है कि वे जानते ही नहीं कि किसको पकड़ा जाय।’ उसने आगे इना शुरू किया—

मिस्टर ओटो के विचन ने एक हजार पौंड पुलिसवालों को इसलिए भेजे हैं कि वे उस व्यक्ति को पुरस्कार-स्वरूप दिये जायें जो निम्नलिखित गातों की सूचना दे सके—

१. ब्रैमकोर्ट होटल में बुधबार की रात को लौरिमर कैन्सटन की हत्या किसने की?

२. बृहस्पतिवार को पाइनलैण्डस में सेफ की चोरी किसने की?

३. शुक्रवार की सुबह मिस ऑरियल की हत्या की चेष्टा किसने की?

४ आज सुबह छिपे छिपे पाइनलैण्डस में कौन दुसरा से मिली हुई हैं, लेकिन यह एक आदमी का काम है या किसी गिरोह का,

سولہ—

तार की रात, १८ दिसम्बर।

मिस्टर पौटर की आज वर्पंगॉठ है और पचास वरस से नियमानुसार उनमाते आ रहे हैं। उनकी दस्तरी की दूकान है। रोज सुबह लै जाते हैं और रात के सात बजते-बजते घर लौट आते हैं। आज नियमानुसार वे चले आ रहे थे। लन्दन शहर के ऊपर घना कुहरा हुआ है, सड़क की बत्तियों उसमें से सिर निकालकर भाँक रही है। र पौटर नुपचाप वर्पंगॉठ की प्रसन्नता में, अपना छाता ताने केमडन न के रास्ते घर की ओर चले जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कुहरे के कारण वे अपना रास्ता भूल गये हैं। फिर भी वे मस्त र गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे कि एकाएक झटका खाकर लडखडा। एक आदमी के पॉव से उन्हें ठोकर लगी जो एक मकान की छायों पर बैठा हुआ था। इस सुनसान मुहल्ले में इस बक्क कोई इस सीढियों पर बैठा रहे, यह मिस्टर पौटर को आश्चर्यजनक जान पड़ा, भी कुहरे के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई न देने पर वे बोले—‘माफ जिए, क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं?’

कोई जवाब नहीं मिला।

पौटर ने अपने छाते से उन पांचों को फिर खोदा, कहा—‘क्या आप आ सकते हैं कि हम कहाँ हैं?’

गों से ऐसे सदय व्यवहार की उसे आशा नहीं थी। सिल्वर के भीतर
ने पर लिल ने पूछा—‘कहिए, आप क्या चाहते हैं ?’

‘मिस्टर केम्प अब यहाँ नहीं आवेंगे। क्या आप इन चीजों को
चानती हैं ?’ इतना कहकर सिल्वर ने जेन से एक टोपी, एक सिगरेट-
इंडर और एक घड़ी निकालकर लिल को दिखाई।

लिल—‘मैं इन्हें नहीं पहचानती, पर माजरा क्या है ?’

सिल्वर—‘अगर ये चीजें आपके पति की हैं तो मुझे दुख है। मैं
पको एक बुरी तरफ सुना रहा हूँ।’

लिल का चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा—‘क्या आपने केम्प को
(डाला ?)

सिल्वर ने बिना उत्तेजित हुए कहा—‘इन वस्तुओं का स्वामी अब
गया है।’

लिल ने एकदम उत्तेजित होकर कहा—‘यह भूठ है, बिलकुल भूठ
आप मजाक कर रहे हैं। कल रात वे घर नहीं आये, पर अब आते
होंगे। आप कृपा कर यहाँ से चले जायें।’

सिल्वर ने शान्त भाव से उत्तर दिया—‘हमारा विश्वास है कि मृत
गक्कि केम्प ही हैं। कृपया हमारे साथ चलकर लाश की शिनाख्त कर ले।’

थोड़ी देर तक लिल सोचती रही कि इसमें कुछ चाल तो नहीं है,
नन्तु यह विश्वास हो जाने पर कि ये चीजें वास्तव में केम्प की ही हैं,
उसने कहा—‘चलिए, मैं चलकर देखूँगी।’

समाधिस्थल पर पहुँचकर थोड़ी देर तक लिल लाश के पास स्तव्य
उँगड़ी रही, फिर फूट पड़ी—‘किस हत्यारे का यह काम है, महाशय !’

कहा। जब तक केनेथ नाम के किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई व तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, पर उस दिन अद्यगर पहले उनका चेहरा बहुत विचित्र हो गया। मेरे पूछने पर उन्होंने विंग-वाली चोरी का हाल बताया। केनेथ की हत्या के समय तो वे तो पास रहे।'

सिल्वर—‘जवाहरात की चोरी में उनका सहायक कौन था?’

लिल—‘यह मैं नहीं जानती। ऐसी बातें वे मुझे कभी नहीं बताते थे कहा करते थे कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम कुछ न ; क्योंकि इससे कभी तुम्हारे विपक्ष में पढ़ने की भी आशङ्का है यह उनसे वर्दाश्वत न होता।’

सिल्वर ध्वना गया। केम्प की मृत्यु के बाद वह मन ही मन हवाई। बना रहा था कि किस तरह लिल से मिलेगा और किस तरह उसे से सारी बातों का पता लग जायगा, पर लिल खुद या तो ऑधेरे में ग उनसे कुछ बातें छिपा रही थीं। फिर भी, उसने पूछा—‘केम्प कैमडन टाउन क्या करने गया था?’

लिल ने वैसे ही उत्तर दिया—‘मैं क्या जानूँ? मैंने कल से उन्हें ही नहीं।’

सिल्वर को सहसा पाइनलैंड्स की रिडकी के प्रकाश की बात याद गई। उसने पूछा—‘क्या वह शुक्रवार की रात को विंगफोर्ड आया?’

लिल ने कहा—‘मैं नहीं जानती। श्रापसे कहा तो कि वे अपने मो के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताते थे।’

त्रह—


का प्रातःकाल, १६ दिसम्बर।

‘डी मैकएन्ड्रूज़ नित्य नियमानुसार अखदार पढ़ने का अभ्यस्त था। पेशे—चोरी का माल खरीदने—मैं यह सहायक था। अखदारों में भी और अपराध के सबंध में जो खबरें छुपती, उन्हें वह काटकर जिस्टर में चिपका लेता। इस समय भी वह उसी रजिस्टर को र देख रहा था। चश्मा एक बार साफ कर उसने पढ़ा—। यह जाता है कि इस अपराध और मिस ऑरियल के जीवन य घटनाओं में कोई गहरा संबंध है। कल रात बहुत देर तक इन्सपेक्टर सिल्वर, जो बिंगफोर्डवाले मामले का पता लगा रहे हैं, केम्पवाले मामले का पता लगाते रहे। केम्प को पहले भी कई बाँड़ों के लिए जेल हो चुकी है।’

अग्र खोलकर मैकएन्ड्रूज़ ने और भी कितनी ही कतरने निकाली गफोर्डवाले मामले से सबंध रखती थी और ध्यान से उन्हें देखने। उसी समय कमरे में हल्के पद-शब्द सुनकर वह धूमा। कवीनी ही थी—‘मैं खाना खाने नहीं आऊँगी मैक।’

सैन्डी—‘मुझे कुछ बाते तुमसे करनी है।’

कुर्सी की पीठ पर झुककर युवती ने कहा—‘कहिए।’



‘श्रद्धारह—

वार की सुवह, १६ दिसम्बर।

विंगफोर्ड-स्थित मिस्टर रौलैंड के बैंगले को जिजर हॉट्स जब कभी खा तो उसे वड़ी घवराहट होती। अखवारो से उसे सब बठनाओं का चेल गया था। उसे इस बात पर झुँझलाहट होती कि पुलिस इस ले में जल्दी क्यों नहीं कुछ कर रही है। इसी लिए, आज काम पर तै समय, वह बैंगले के सामने से जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाता निकल गया। वह अभी पटरी पार ही कर रहा था कि उसकी निगाह पटरी पर ही किसी चीज की ओर गई। उसने उसे उठा लिया। घोर सदी भी उसके मुख पर पसीना चुहचुहा आया। इसके क्या मतलब हैं? या हुआ है? क्या होनेवाला है? वह सोचने लगा, उसे क्या करना चाहिए। पुलिस को तो खबर देनी ही होगी। वह जब गैरेज पहुँचा, उस समय साढ़े नव बजे थे। फोरमैन के हट जाने के बाद वह तुरन्त स्टेशन आया और लन्दन को ओर सबा दस बजे की ट्रेन से खाना हो गया।

स्काटलैंड यार्ड पहुँचकर वह सिल्वर से मिला। जेव से एक गन्दे रुमाल को निकालकर उसने उसे खोला और उसमें की चीज़ों को टेबुल पर उल्ट दिया।

लाल दूत

डन्कन रैलैण्ड कहा पर है। सब पता लगारु मुक्त बेलाम
। समझे !'

टेलीफोन करके सिल्वर कमरे में परीशान सा घृमने लगा। ग
र बाद टेलीफोन की घटी बड़ी। रिसीवर कान में लगारु मित
।—‘हाँ, कहो फॉस !’

उत्तर आया—‘मेरे वैगले से बोल रहा हूँ। सब ठीक है। मि
एड थर पर ही हैं। उनका कहना है कि उनका लड़का डन
एड वहाँ नहीं है।’

सिल्वर—‘डन्कन कब गया ?’

उत्तर आया—‘फल रात को करीब दस बजे। वह कुछ दिनों
लन्दन गया है।’

सिल्वर—‘लन्दन में कहाँ रहता है ?’

उत्तर—‘उसके पिता इस सब ध में कुछ बताना नहीं चाहते।’

सिल्वर—‘अच्छा फॉस, मेरा चाहता हूँ कि एक आदमी रैलैण्ड
पर तैनात कर दो। एक मिनट के लिए भी मकान बिना पह
है, समझ !’

टेलीफोन रखकर वह लड़के की ओर धूमा, कहा—‘हॉब्स, मेर
सी से भी मत कहना। इस बात को अभी तक हम देख ही जानते
गर तुम्हारा मुँह खुला तो सम्भव है, तुम्हारी जान पर आ बने।
रुपये इनाम लो। जाओ !’

हॉब्स के जाने के बाद सिल्वर अपनी कुर्सी पर विचार-मन्त्र बैठ र
सका व्यान उन्हीं चार टाँगा फलों पर जमा था। ये रैलैण्ड के वैग

‘कुछ घरराया, डग सा लगा। कौलिन्सन हिपकर निम्न गया। जिन रस्ते, स्काटलैंड यार्ड के फ़ाटक की ओर देगा और फिर आगे डॉ। पीछे-नीछे कौलिन्सन उसके पास पहुँचा और उसे अचानक भैंट हो गई हो, कहा—‘अरे, डन्कन !’

डन्कन ने कौलिन्सन को पहचाना, कहा—‘अरे, आप !’

थोड़ी दूर और चलने पर कौलिन्सन ने कहा—‘अभी मैं यार्ड के फ़ाटक पर आपको देख चुका था। शायद आप तय नहीं कर पाए वे कि भीतर जायें या नहीं !’

डन्कन कुछ बोला नहीं, चलता गया। एक जगह रुककर उसने कहा—‘मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आपका खयाल है कि अपने भाई की हत्या मैंने ही की है ?’

कौलिन्सन—‘क्यों ! मैंने तो ऐसा कभी कहा नहीं !’

डन्कन—‘कहा न हो, पर समझते जरूर हैं, क्यों न ? पुलिस भी यही नोचती है। मेरे पिता को भी कुछ-कुछ ऐसा ही सन्देह है। यह तो यही मुश्किल है।’

कौलिन्सन—‘हम लोग तो केवल वास्तविक घटनाओं से ही अपने नतीजे निकाल सकते हैं।’

डन्कन—‘मुझ पर सन्देह किया जारहा है और किसी के विचार बदले नहीं जा सकते।’

कौलिन्सन—‘पर बदलने का कोई कारण तो हो ! आप अभी तक यह मुझे सावित नहीं कर सके कि आप निरपराध हैं।’

गीर्वार की सुवह, १६ दिसम्बर ।

मैगपी बलच के एक कमरे में आरामकुर्सियों पर बैठते हुए डन्कन ने कहा—‘आपने वह पुजारी मुझे दिखला दिया, यह अच्छा किया । कम से कम मुझे यह तो यकीन हो गया कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे । हाँ, तो क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मैंने अपने भाई की त्या नहीं की ?’

कौलिन्सन—‘तब आप यार्ड के फाटक पर इतने घबराये से क्यों नहै थे ?’

डन्कन—‘देखिए मिस्टर कौलिन्सन, मैं इस समय बहुत स्पष्ट बाते रहा हूँ, क्योंकि मुझे सलाह की जरूरत है । पिताजी ने मुझसे बच्चन लेया था कि मैं किसी से कहूँगा नहीं । उनका विचार है कि चुप रहना श्रेयस्कर है पर मैं ऐसा नहीं समझता । केवल तीन आदमी ही सत्य गत जानते हैं ।’

कौलिन्सन—‘कौन सी सत्य बात ?’

डन्कन—‘उन्हीं योगा फलों की । और वे तीन आदमी हैं—मेरे पेताजी, मैं और मिस ऑरियल मैक्सवेल ।’

भारी विपत्ति ला सकता हूँ। परिस्थितियाँ ही शुरू से हमारे गिरफ्त हैं। ऐसे, तो सबसे बड़ी बात यही है कि वे टांगा फल हमारे जीवन के हैं। इस देश में वे ज्यादा नहीं पाये जाते, दक्षिणी अफ्रिका भी अधिक नहीं दिखाई पड़ते। वे कोई विशेष महत्व के नहीं हैं। वहाँ के निवासी जिस काम में इन्हें ले आते हैं वह विचिन जरूर है। वीन साल पहले, उत्तरी जुलूलैंड का एक व्यापारी, जो हमारे मिन्हाने देश से आकर ठहरा। एक दिन उसने अपनी जब से तक फल काले और पिताजी से पूछा कि 'क्या आप इन्हें जानते हैं?' मैंने कभी न के बारे में सुना नहीं था। पर पिताजी ने बताया कि वहाँवाले मृत्युदेश के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। वह व्यापारी, जो अब अफ्रिका में उन्हें हमारे यहाँ छोड़ गया। किसी ने उन्हें बैठक के कमरे में एक बक्स में उठाकर रख दिया और वहाँ वे पड़े रहे।'

कौलिन्सन—'ठहरिए! उस व्यापारी ने जब वे फल दिखाये, तभी वहाँ कौन कौन था?'

डन्कन—'मैं, मेरा भाई केनेथ और पिताजी।'

कौलिन्सन—'शौर कोई नहीं।'

डन्कन—'मैं समझता हूँ, और कोई नहीं था, पर उस समय उन फलों को इतना गुप्त समझने की कोई जरूरत तो थी नहीं। हो सकता है, पिताजी ने ही किसी और व्यक्ति को दिखाये हो, यद्यपि उन्हे इस बात की याद नहीं है। जब ऑरियल को धमकी दी गई और उसका कुत्ता मरा तभी उसने वह फल हमें दिखाया। मेरे पिता ने ही उसे उनमें

‘और कुछ। डन्कन ने फिर पूछा—‘आपने मुना उछू ? या मन
फिर सिल्वर क्या कहेंगे ?’

कौलिन्सन ने सहसा पूछा—‘क्या आपको या आपके प्रताना या
स्मरण है कि उस बक्स में कितने टाँगा फल रखये गये ?’

डन्कन—‘हों। छ. या सात रहे होंगे।’

कौलिन्सन ने सोचा, बात ठीक है। एक कुत्ते के गले में ये या
दूसरा औरियल के पास फ्रास भेजा गया था, तीसरा पाइनलैंटम
उसके पास भेजा गया था और चार फल हॉव्स को मिले थे। इस
इस बात हो गये।

डन्कन—‘एक और चिन्ता मुझे खाये डाल रही है और सब तो
‘ह है कि इसी लिए मैं आज स्काटलैंड यार्ट गया भी था। मुझके
भिशास है कि औरियल पर कोई विपत्ति नहीं आवेगी, पर अब तक की
घटनाएँ देखने से भय होता है कि कहीं वही अब दूसरा शिकार न
हो। यदि ईश्वर न करें, औरियल मर गई और तब पता चला
कि टाँगा फल हमारे पास थे... क्या करूँ कौलिन्सन, कुछ समझ में
नहीं आता।’

कौलिन्सन—‘पहले तो मैं तुम्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि सिल्वर
तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहता है। अगर तुम खुद ही उससे न
मिलोगे तो वह दूसरा उपाय काम में लावेगा। तुम उसमें मिलकर सारी
याते कह दो, यही मेरी सलाह है।’

चीस—

गार की रात, १६ दिसम्बर।

पिंगफोर्ड में मिस टिवैट का जो मकान था उसका नाम या गज ज। इस समय समूचे मकान की रोशनी बुझी हुई था। मिस के कमरे की वगल में मकान मालिक जार्डन गेस्ट का रुमग था। स समय अद्वा तन्द्रा में था। पर उसकी पत्ती एलन, जो कुछ दिनायल के यहाँ भी काम कर चुकी थी, इस समय बहुत अव्यवस्थित भड़ती थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के एक बजे उसकी इट इतनी बढ़ी कि वह उठकर चिस्तर पर बैठ गई। कोई रहस्य मन में उथल-पुथल मचाये हुए था और अब वह बिना उसे निकाले चैन नहीं पा रही थी। उसने एक बार अपने खर्चाटे हुए पति की ओर देखा और निकलकर मिस टिवैट के कमरे बुँची।

मिस टिवैट ने आश्चर्य से पूछा—‘क्या है? इतनी गत को बैसे?’

एलन—‘एक बात तुमसे कहनी है टिवैट। यह तुम जानती हो कि म्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। पर शुरुवार की गत की बात खाये ढाल रही है।’

लाल दूत

‘उम्हीं उस रात को पाहनलैरद्स गई था। मैं तो तुम्हारा ज़ब्द
वात पर विचार न करती, पर मुझे भय है, जॉर्डन अब मानना नहीं।
मैं तरह तरह की कहानियाँ फैल रही हैं। सबका यही विचार है कि
गे ही उस दिन रात को रोशनी लेफ़र वहाँ गया था। जाना न
है कि पुलिस से सब कुछ कह देना उनका फर्ज है आप फल मुझे
मिना कहे रहेंगे नहीं। इसी लिए मैं इस बक्तुम्हे सामरण नहीं
हूँ। तिवैट, अब तुम क्या करोगी ?’

तिवैट जैसे वर्षा उपस्थित न हो। उसके विचार न जाने कर्ता कहा
कि रहे थे। वह कुछ बोली नहीं। एलन ने पुन उसे भक्तोग—
कहा—‘जॉर्डन के सेकार उठने के पहले यदि तुम उठ सको तो चुपके
यहाँ से निकल भागो। कोई जान न समेगा !’

तिवैट ने अब एलन के अन्धे पर हाथ रखकर कहा—‘मैं भागूँगी
एलन। मुझे क्या करना होगा, यह मैंने तय कर लिया है।
तुम जाओ, सोओ। अगर तुम्हारे पति सब कुछ कह ही
ना चाहते हैं, तो उन्हे कोई रोक नहीं सकता। मुझे अकेला
शेष दो।’

एलन चली गई। सबेरा होते ही जॉर्डन उठा। एलन ने
फ़हा—‘जॉर्डन, तुम गलती पर हो। तिवैट ने ऐसा हरगिज़ न
किया होगा !’

जॉर्डन—‘हो सकता है, मैं ही गलती पर होऊँ। पुलिस को उचित
जवाब देना तिवैट का काम है। हत्या आनिवर हत्या ही है और मैं

इक्कोस—

मगर का प्रात काल, २० दिसम्बर।

तिवैट के कमर में पहुँचकर सार्जेट फॉस ने चारपाई पर बड़ा निपटा
देना। इस नार्गे के प्रति उसके मन में शुल्क से ही अद्वा या।
इस समय बीमार और बपा बूढ़ी जान पड़ती थी। भीतर ही भानग
स्त्री बम्नु से वह परीशान थी।

फॉस—नमस्कार मिस तिवैट। इस समय इस तरह आने के लिए
दुखी हूँ पर क्या करूँ, जार्डन ने अभी जो बात बताई है उससे आपका
ही सम्बन्ध है।

तिवैट का हाथ अपनी छाती की ओर गया जो बुरी तरह धड़क रही
थी। उसने कहा—‘आप क्या चाहते हैं?’

फॉस—‘क्या आप शुक्रवार की रात को पाइनलैंड्स गई थीं?’

तिवैट—‘हाँ, गई थी।’

जेप से नोटबुक निरालते हुए फॉस ने कहा—‘किस बक्से?’

तिवैट—‘करीब पौने दो बजे। अबेली ही मैं गई थी।’

फॉस—‘हाँ, दो बजे के बाद ही मैंने पाइनलैंड्स की छात्रा गिरी-गिरी
प्रकाश देखा था।’



थे थे। अखबारों में मैंने पढ़ा कि जिस टाइपराइटर पर ग्रन्त छापे हैं। उसकी पहचान हो सकती है, तभी मैंने उसे एकदम गायब देना चाहा।'

फॉस—'किसके कहने से आपने वे खत भेजे थे ?'

तिवैट—'किसी के नहीं।'

फॉस ने सम्मति-सूचक सिर हिलाया। अपने अब तक के पुलिस-विवर में उसे ऐसे रहस्य से पाला नहीं पड़ा था। मिस तिवैट सदा रिपोर्ट जान पड़ती थी। उसने पूछा—'उन टाँगा फलों के बारे में आप जानती हैं ?'

तिवैट—'मैंने ही उन्हें भेजा था।'

फॉस—'ब्रैम्कोर्ट होटल में लौरिमर क्रैन्सटन की हत्या भी क्या आपने ही की थी ?'

तिवैट—'हो, हो, क्या अभी तक आपने कुछ नहीं समझा ? मैंने स ओरियल को मारना चाहती थी, पर क्रैन्सटन वीच में आ गये।'

फॉस—'ठहरिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मिस ओरियल ने पुलिस कहा था कि होटल में बन्द दरखाजे पर उन्हें किसी मर्द की आवाज नाई दी थी।'

तिवैट—'हो, उन्होंने कहा था कि वे साफ सुन नहीं सकी थीं। भी आवाज और औरतों की बनिस्वत कुछ भारी है। तभी उन्हें धोखा दुआ। क्रैन्सटन ने मेरे हाथों में छुरा देखा। वे समझ गये कि मैं क्या करना चाहती हूँ। रुकने का समय कहाँ था ? मैंने उनके छुरा भोक दिया और चुपचाप नीचे उतर गई।'

18

19





ल है, अपराधी ने ही ऑरियल को क्लोरोफार्म भी सुँधाया था। फेफार्म का असर तुरन्त नहीं होता और जब ऑरियल पर ग किया गया तभ वह बचाव के लिए लड़ी भी होगी, पर वही मज़बूत था। आपको भी यह स्वीकार करना होगा कि, टिवैट का काम नहीं हो सकता। फिर फॉम्सी केम की गहरी गला दवाफ़र और यह भी उसी अपराधी का काम था; टिवैट की डॉगलियो से वह काम नहीं हो सकता। सबसे बड़ा तथ यही है डाक्टर कि टिवैट जैसी सही दिमाग़वानी स्त्री यह गनिया क्यों गढ़ रही है !


डाक्टर टिवैट को देखने चले गये। फॉस ने नोट-बुक जेव और सिल्वर के साथ पाइनलैंड्स आया। ऊपरवाले पानी ज में से टाइपराइट भी मिल गया। सिल्वर ने कुछ सोचकर कहा—‘नान पढ़ता है फॉस, टिवैट किसी को बचाने की चेष्टा कर रही है। कोई ऐसा जिसके लिए वह मर तक सकती है।’

फॉस का बना-बनाया खेल विगड़ रहा था। उसने परीशान होकर कहा—‘जो हत्या कभी नहीं की उसी को स्वीकार करना और जहर पीकर आत्म-हत्या करना, यह सब क्या और क्यों हुजूर !’

सिल्वर—‘फॉस, यह मत भूलो कि प्रेम आदमी से सब कुछ सकता है।’

फॉस—‘मैं समझता हूँ, मिस ऑरियल के लिए टिवैट सब कुछ सकती है। क्यों न ?’

कौलिन्सन—‘उनकी आँखों का रह एक-सा ही है, वर तो
 ऐसे रॉलैंड ने अपनी पत्नी की तसवीर मुझे दिखाई थी।
 टिवीट से नहीं मिलती। ढन्कन के पैदा होते ही वह मर
 गई थी। फिर, तिवैट ढन्कन से चिढ़ती भी तो है। इसे क्यों
 नहीं हो ?’



प्रेखाग्रो के बावजूद भी क्वीनी पिघल जाती। घट के बल इतना ही। सको—‘मुझे भूल जाने की चेष्टा करो स्पाइक !’

स्पाइक—‘यह कैसे सम्भव है ? कितनी ही बार तो तुमसे कर दूँ कि मेरे व्यान में तुम्हाँ रहती हो !’

यह सत्य भी था। अगर कभी कोई पुश्प किसी छो से पागल होकर उसका था तो स्पाइक उसकी प्रतिमूर्ति था।

क्वीनी—‘मैं क्या कर सकती हूँ स्पाइक, मैंने तो निश्चय कर लिया है, तुम इस बक्क इतने परीशान क्यों हो रहे हो ?’

स्पाइक—‘मैं टेलीफोन पर ज्यादा बातें नहीं कर सकता। इतना कर सकता हूँ कि वे मेरे पीछे पढ़े हुए हैं। ‘वे’ के मतलब तो तुम ही गई होगी।’

क्वीनी—‘तो मुझे क्या करने का कहते हो ?’

स्पाइक—‘दिन भर वे मेरा पीछा करते रहे हैं। मेरे घर पर भी जर रखती जा रही है अत। मैं वहाँ भी नहीं छिप सकता। अगर मैं लौटी ही लन्दन के बाहर नहीं चला जाता तो वे मुझे अवश्य पकड़ दें। मैंने सोचा, तुम्हें लेफ्ट यहाँ से भाग निकलूँ।’

क्वीनी—‘तुम्हारे पास रुपये हैं ?’

स्पाइक—‘हूँ, फिलहाल काम भर के हैं।’

क्वीनी—‘तुम इस समय हो कहो ?’

स्पाइक—‘स्ट्रेथम मे !’



१०३७२४३। एक श्रावणी का रुप है। यह तो बिल्कुल
र आप लोग यह विश्वास करें। यह तो बिल्कुल
पाय वही व्यक्ति है। देर नहीं। यह तो बिल्कुल
देलीफोन रखकर सैन्धी वह है।

ल्दी करें तो स्पाइक को पछड़ फूटें। यह तो बिल्कुल यह है।

X X

पीटर क्लार्जेस स्ट्रीट में आपने यहाँ तो बिल्कुल
वाद उसके मुख का भाव किया। यह तो बिल्कुल यह है।
गौरियल ने यह सन्देश किया; पृष्ठा पर लिखा है। यहाँ तो बिल्कुल

पीटर ने जल्दी में कहा— यहाँ तो बिल्कुल यह है।
कहीं से मिलने अभी जाना है। यहाँ तो बिल्कुल यहाँ सुनत
गकर कहो कि हत्यारा नवर पी० न० तो यहाँ तो बिल्कुल
कहो कि जल्दी पीछा करने का यहाँ तो बिल्कुल गाढ़ी पर
यहाँ हैं। मैं चला। यहाँ तो बिल्कुल यहाँ हैं।

पीटर भागता चला गया। यहाँ तो बिल्कुल यहाँ हैं।
पीटर ! पर पीटर ने सुना नहीं। यहाँ तो बिल्कुल यहाँ हैं।

गुनिय

८

न

८

3

4

5

6

7

8

दी तो । अभी पीटर की सुहागरात होनी चाही थी । पीटर ने इसे काम लिया । कहा—‘मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर रहा कि कृपया मेरी गाड़ी का कार्बोरेटर जग देख लीजिए; काम नहीं हो है ।’

उस व्यक्ति ने तुरन्त जवाब दिया—‘ओह, यह बात है मिस्टर पीटर ! से हुटकारा पाने के लिए मैं आपको गोली मार देता पर व्यर्थ का लो होगा । अच्छा, मेरी कार पर चढ़कर जहाँ ड्राइव कीजिए नहीं शै सेकेट में ही आप मेरे हुए नजर आवेंगे ।’

फोई दूसरा उपाय नहीं था । पीटर कूदकर नीले रग की कार पर बर की जगह बैठ गया । उसने घूमकर देखा, उस दूसरे व्यक्ति के ठां में पिस्तौल थी । उसने उसे पीटर की बगल से सटाते हुए कहा—‘लो, बाये घूमकर सेंट एल्वान्स की ओर चलो ।’

पीटर ने गाड़ी रटार्ट करते हुए कहा—‘मुझे याद आता है, हम कहीं ले हैं । तुम्हारी आवाज पहचानी हुई लगती है ।’

‘अगर गाड़ी चलाने में जरा भी गलती की तो दुनिया में कुछ भी हचानने के योग्य न रह जाओगे । अच्छी तरह समझ लो । अगर मैं पकड़ा गया तो कहीं का भी न रहूँगा । अगर जरा भी चालाकी की तो गोली मार दूँगा । आपिर फॉसी तो एक बार ही पड़ूँगा न ।’ उस आदमी ने कहा ।

पीटर—‘ठीक है, ठीक है । ड्राइव करने लायक रात भी खूब है और कहों तक ।’

ओरियल—‘वह तो नहीं जानती, पर मैं अक्सर उसे चिढ़ाती थी कि क्यों उसे उंगली के इशारे से नचा सकता है। पर वह इसका ऊछा ल नहीं करती थी।’

गिल्टर—‘असल बात यह है कि मिस टिमेट मिस नहीं, मिसेज वे एक अच्छे परिवार की हैं पर उनका जीवन बहुत दुःखमय। बीस वरस पहले उनका विवाह हुआ, पर पति आवारा निकल गया। एक जुम्ब में जेल भेजा गया। जिस दिन उसे सज्जा मिली, दिन मिस टिमेट ने एक पुत्र को जन्म दिया। लड़के का नाम श्री रखसा गया और वह अपनी चाची द्वाय पाला-पोसा गया। बीच में टिमेट को पाइनलैंट्स में नौकरी मिल गई। उसे हमेशा बात का ढर लगा रहता था कि कहीं यह भेद खुल न जाय कि वह चोर को पली है। तभी उसने अपने को मिस कहकर धोपित किया। का बढ़ता गया पर पिता के रक्त का असर उसमें मोजदूर था। वह भी इ के ढरें पर ही चल रहा था। चौदह वरस की उमर में वाल्टर टिमेट रिफार्मेंटरी में भेजा गया, पर उसकी अपराधी वृत्तियाँ भर्यकर रूप से रही थीं। अभी पाँच वरस पहले, जब वह साइक टिमेट के नाम चोरों में मशहूर था, उसे डाका और हत्या के जुम्ब में जेल की गा हुई।

‘टिमेट ने सोचा कि स्वयं लड़के को न पालने-पोसने का ही यह गोजा है। जिउ दिन वह जेल से छोड़ा गया, वह उससे जेल फाटक पर मिली और चाहा कि भली जिन्दगी वसर करे। इसका क ही उपाय था। उसने उसे भी पाइनलैंट्स में रानसामा की नौकरी

t
t
t

है। तिवेट उनके खबर उनके पास भेजा गया था। एक दिन को से मास्टर्स ने पता देरख़ लिया और दूसरा धमकी का पत्र उनके पास आया। थोड़े दिनों बाद मिस ऑरियल ने तिवेट को लिखा कि हैंलैंड वापस आ रही हैं। इसी जगह तिवेट गलती कर गई। उसने न धमकी के पत्रों के लिए तथा उन टॉगा फलों के साथ अफ्रिका का सम्बन्ध होने के कारण डन्कन रैलैंड पर सन्देह किया। तिवेट ने मास्टर्स को चतुरा दिया कि मिस ऑरियल हैंलैंड वापस आ रही हैं। वह यह जानता था कि हमेशा को तरह ऑरियल एक रात ब्रैमफोर्ट होटल में रहा रहा। वह लन्दन गया और होटल में ऑरियल के कमरे में जाने की तीक्ष्णा करता रहा। क्रैन्सटन ने उसे देख लिया और रोकना चाहा। इसी समय मास्टर्स ने उन्हे छुरा भोंक दिया।

‘इसी बीच एक घटना और हो गई। फॉम्सी केम्प नामक एक चोर ने मास्टर्स को हमेशा होने के कारण पहचान लिया। केम्प ने इसका फायदा उठाना चाहा और गाँव की सराय में वह ठहर गया। वह हत्यार नहीं था। यदि उसने जान लिया होता कि मास्टर्स खूबी भी है तो उसने अपना सारा सम्बन्ध उससे तोड़ लिया होता। मिस ऑरियल के सेफ की ताली की एक नुक़ल मास्टर्स ने किसी बक्क ले ली थी। उसने जवाहरत चुराने का भी तय किया। वह केम्प का मुँह भी बन्द रखना चाहता था। केम्प ने धमकी दी थी कि सारा भेद सोल दूँगा और चतुरा दूँगा कि यह द्यानसामा चोर है। मास्टर्स ने जवाहरत चुराये और आधे केम्प को दे दिये। एक छँधेरी गली में वह जिस बक्क केम्प को जवाहरत दे रहा था, उसी समय केनेथ रैलैंड उधर से अपनी कार पर गुज़रा। उसने मास्टर्स को पहचाना।

1

2

3

